



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30—अप्रैल 5, 2019 (चैत्र 9, 1940)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30—APRIL 5, 2019 (CHAITRA 9, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और  
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

गृह मंत्रालय

(सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी)

हैदराबाद-500052, दिनांक 21 फरवरी 2019

सं.- 15011/12/2018/स्था./ए2—गृह मंत्रालय के कार्यालय जापन सं. 1-21015/32/2018. भा.पु.से. III दिनांक 19.12.2018 के  
अनुसरण में दिनांक 31.01.2019 के पूर्वाह्न से श्री सी. वामशी कृष्णा, भा.पु.से. (कर्नाटक-2009) को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी,  
हैदराबाद में सहायक निदेशक (पुलिस अधीक्षक स्तर) के पद पर वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 में प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के आधार पर  
4 साल या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो नियुक्त किया जाता है। अधिकारी समय-समय पर जारी भारत  
सरकार के अनुदेशों के अनुसार उक्त पद के वेतन एवं भत्तों के हकदार होंगे।

डी. आर. डोले बर्मन  
निदेशक

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय,

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2019

सं. ओ दो-7848/2019-कार्मिक-डीए-4—सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 01/01/2019 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री राजन अगरवाल, उप कमाण्डेंट (ईरला-7848), 81 बटालियन, केरिपुबल, जसपुर (छत्तीसगढ़) ने दिनांक 28/02/2019 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 28/02/2019 (अपराहन) से निकाला जाता है।

बी. एस. गुजराल  
उप महानिरीक्षक

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 28 फरवरी 2019

सं. ई-38013/2/अ.सू./रा.प.अ./2019/कार्मिक.1/136—राष्ट्रपति, केऔसुब के निम्नलिखित सहायक कमाण्डेंट (लोकल रैंक) को वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु. 56,100—1,77,500 में केऔसुब में सहायक कमाण्डेंट (कार्य) के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	सहायक कमाण्डेंट के रूप कार्य भार संभालने के तिथि
1.	अश्वनी कुमार	12वी.आ.वा. बहरोड	02.02.2019 (पूर्वाहन)
2.	इजहार अहमद	आईएसपी बर्नपुर	23.01.2019 (पूर्वाहन)
3.	रंजीब कुमार मिश्रा	जीआरएसईएल कोलकाता	22.01.2019 (अपराहन)
4.	कन्जारिया देवेन्द्र	इलैक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलौर	22.01.2019 (अपराहन)

उक्त अधिकारियों की सहायक कमाण्डेंट/कार्य के पदपर पदोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी(सी) संख्या 30621/2011 में दिनांक 26.09.2018 को दिए फैसले के अधीन है।

ह/- अपठनीय  
महानिदेशक/केऔसुब

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

प्रारूप एसटीके 6

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

पुणे-411044, दिनांक 8 मार्च 2019

सं. ROC/CP/STK6/32/2019—

अनु.क्र.	सीआईएन	कम्पनी
1	U01122PN2010PTC137465	महेंद्र एगो टूरिज्म एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2	U17121PN2011PTC139171	फाब्लेच इंटीग्रेटेड टेक्सोपार्क प्राइवेट लिमिटेड

अनु.क्र.	सीआईएन	कम्पनी
3	U27300PN2007PTC130782	श्रीराम अलफोरसा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
4	U29222PN2013PTC148597	वर्सटाइल मिक्रोटेच प्राइवेट लिमिटेड
5	U40106PN2013PTC147159	दयानप्रसाद सोलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
6	U40108PN2008PTC131308	शाश्वत ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
7	U40300PN2015PTC154386	डेक्कन सस्टेनेबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
8	U45203PN2017PTC172181	पीसी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
9	U45500PN2017PTC170632	एसएमजीव्ही कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
10	U51505MH1994PTC081816	आकय इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
11	U51909PN2015OPC157627	हिंदभू इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपिसि)
12	U52399PN2014PTC152449	लैंडवार्ड ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U52399PN2016PTC158213	ऐआयोन बीस्पोक प्राइवेट लिमिटेड
14	U65990PN2009PTC134494	स्पंदन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
15	U70109PN2018PTC176130	लिवित्य इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
16	U72200PN2015PTC155673	जूरिस्तेच एंटरप्राइज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U72200PN2016PTC165456	एंटरटैकनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
18	U72900PN2014PTC153072	गीजा सर्विसेज & प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U72900PN2016PTC166333	सिल्वर क्लाउड कारपोरेशन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
20	U72900PN2016PTC166498	मोबिलीज़ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
21	U74899PN2006PTC138016	अलिअन्सेस फॉर युएस इंडिया बिज़नेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
22	U74900PN2010PTC137539	जो हॉलीडेज लेसुरेस प्राइवेट लिमिटेड
23	U74900PN2014PTC152179	एक्सपांडुस इंटर प्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
24	U74900PN2014PTC153246	टमैड हैल्थकारे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
25	U74900PN2015PTC155206	वास्तु एगो & डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
26	U74999PN2012PTC142473	सनबीम सोलर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
27	U74999PN2016OPC165770	प्लांटचेम प्राइवेट लिमिटेड (ओपिसि)
28	U74999PN2016PTC164278	ट्रेन्डुस्तर्त्य कॉर्पोरेट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U74999PN2016PTC165576	कर्ट एजुकेशनल कांसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड
30	U74999PN2016PTC167510	क्रेटरों लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U74999PN2017PTC172842	अगरिल बिज़नेस सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
32	U92419PN2010PTC136040	वेस्टर्न घाट एगो & एडवेंचर्स टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड

(1) इसके द्वारा यह सूचना दी जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को ऊपर उल्लिखित कंपनियों से कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त किया है कि वे उनकी कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ति 2 वित्तीय वर्षों से कारबार नहीं कर पायी है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्टर से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

(2) तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्टर से ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।

(3) यदि किसी को रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

पी. एस. खांडे  
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

एलएलपी अधिनियम, 2008 और निम्नलिखित एलएलपी के विषय में

पुणे-4110044, दिनांक 12 मार्च 2019

सं. आरओसीपी/नियम 37(3)/एसटीए/2019/3874—एल. एल. पी. नियम 2009 के नियम क्र. 37(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित एल. एल. पी. के नाम रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त एल. एल. पी. विघटीत हो गई है :—

क्र.सं.	एल.एल.पी. सं.	एल. एल. पी. का नाम
1.	AAE-0796	रॉयलस्वैन ओवरसीज एलएलपी
2.	AAI-5841	पारख हॉटिकल्चर एलएलपी
3.	AAF-3399	पीएनआर एबीएशन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट एलएलपी
4.	AAE-6623	सिनेक्टिक्स इंजीनिअर्स एलएलपी
5.	AAE-0273	गिरी लॉजिस्टिक्स एंड रोडलाइन्स एलएलपी
6.	AAE-7667	क्रैब कि सिस्टम इंटीग्रेटर्स एलएलपी
7.	AAH-7213	श्री स्वामी समर्थ लैंडमाक्स एलएलपी
8.	AAI-9160	रॉन कॉरपोरेट सोल्यूशन्स एलएलपी
9.	AAJ-2991	गॉरमेट शेफ्स एलएलपी
10.	AAH-5287	सोनाई पृथ्वी आर्गेनिक एलएलपी
11.	AAJ-0866	टाईडी क्लीनरज हाउसकीपिंग एंड डीप क्लीनिंग एलएलपी
12.	AAI-9973	सनशाइन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एलएलपी
13.	AAD-0605	टेलीसॉफ्टकेअर एलएलपी
14.	AAF-5898	जस्टसर्च प्रॉपर्टी एलएलपी
15.	AAG-0874	रिफॉर्म लिविंग इंटीरियर्स एलएलपी
16.	AAE-1959	जेडी रिफाइनरी एलएलपी
17.	AAI-6365	हेयु गोल्ड एलएलपी
18.	AAH-9302	प्रेमदीप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एलएलपी
19.	AAC-3093	आर्चर एचआर सोल्यूशन्स एलएलपी
20.	AAI-5840	वालव्हिव टेकसॉफ्ट एलएलपी
21.	AAK-0978	रोबोप्रान टेकसॉफ्ट एलएलपी
22.	AAK-5719	जीएस लीगल एलएलपी
23.	AAK-7304	रेडफाउंटेन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट एलएलपी
24.	AAH-2504	सुमतिश्री इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एलएलपी
25.	AAJ-8688	पीएचबी प्रॉपर्टी एलएलपी

क्र.सं.	एल.एल.पी. सं.	एल. एल. पी. का नाम
26.	AAK-0101	इग्नाइट स्किन लैब्स एलएलपी
27.	AAH-4693	बीइंग फ्रेंड्स प्रोडक्शंस एलएलपी
28.	AAF-6531	विज़न टेक एंटरप्राइजेज एलएलपी
29.	AAG-3212	विनवीटी सोल्यूशन्स एलएलपी
30.	AAG-7483	एमकेए एंड असोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज एलएलपी
31.	AAF-4590	संकल्प इनोवेटिव सोल्यूशन्स एलएलपी
32.	AAC-0688	मोटोमॉन्क्स टूल्स एलएलपी
33.	AAH-5802	फ्रैग्रेन्स वेंचर एलएलपी
34.	AAH-1327	संगरुन रिसॉर्ट्स एंड स्पा एलएलपी
35.	AAF-9012	पार्कवेल पार्किंग सर्विसेस एलएलपी
36.	AAC-2946	साई सर्विस स्पेअर्स एलएलपी
37.	AAE-1997	पावर टेक आईटी सोल्यूशन्स एलएलपी
38.	AAG-5946	आयकॉनिक हेरिटेज एलएलपी
39.	AAC-7578	डेव्हसैटवर्क टेक सोल्यूशन्स एलएलपी
40.	AAI-4381	आइफिल इंटरनेशनल एलएलपी
41.	AAJ-8012	सुई चॉक एंड बटन गारमेंट इंडस्ट्रीज एलएलपी
42.	AAI-5819	ईबेक्स वेंचर्स एलएलपी

पी. एस. खाडे  
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

#### फार्म संख्या एसटीके 6

#### सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी नियम, 2016 के नियम 7 के तहत {कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना}]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में  
कोयंबटूर-6410014, दिनांक 4 मार्च 2019

सं. एसटीके 6 आरओसीसीबीडू 2019—

क्र.सं.	पीन सं.	कम्पनी का नाम
1	U01100TZ2008PTC014417	श्री वर्धा अंजनेया फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U01403TZ2014PTC020155	पीएस नटुरो प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3	U02511TZ1992PTC003754	ब्लूमाउंटेन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
4	U17111TZ2010PTC015836	ट्रिनिटी काट्सपीन प्राइवेट लिमिटेड
5	U17299TZ2017PTC028699	सीजर गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U17309TZ2017PTC028777	एच डब्लू सी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	U18100TZ2016PTC028174	बेन्डितो लास प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	पीन सं.	कम्पनी का नाम
8	U22200TZ2012PTC017744	मार्क्स प्रिंट एंड मीडिया सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
9	U24299TZ2015PTC022084	माहिल केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
10	U27109TZ1979PTC000839	सेलेस्वरन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U27205TZ1991PTC003343	कीर्तिलाल कालिदास ज्वेलरी मनुफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U29199TZ1999PTC008921	एसबीके इंटर प्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
13	U29220TZ2008PTC014585	इटीए वेल्ड टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14	U29300TZ2017PTC028375	अववना इक्विपमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	U31902TZ2012PTC017926	एकोलेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U32109TZ2000PTC009388	ब्राइट इलेक्ट्रो कंट्रोलइ क्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U36900TZ2014PTC020823	वागसिस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
18	U36919TZ2014PTC020722	योगी केमरोन वैलनेस प्राइवेट लिमिटेड
19	U40108TZ2012PTC018438	कोयंबटूर सोलर एनर्जी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
20	U45201TZ2015PTC021361	स्काईवाक प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U50200TZ2013PTC020039	सुजाता ऑटो मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U51103TZ2011PTC017412	सिटेक्स साइट ट्रेडर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23	U51393TZ2008PTC014233	स्पान ऑफिस सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
24	U51909TZ2016PTC027750	एस एस एसस्टील्स एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
25	U51909TZ2016PTC027865	ऐपोर्ट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U52100TZ2015PTC021364	मेक्लिनन शॉपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
27	U63040TZ2014PTC020784	वर्डस्ट्राइड एडवेंचर्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U63040TZ2016PTC027795	स्टेहैपी प्राइवेट लिमिटेड
29	U65991TZ1994PLC005427	अनंथाकरपगा विनायगर बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
30	U65992TZ2003PTC010768	मानो अरुन चिट्स कोवै प्राइवेट लिमिटेड
31	U65992TZ2014PTC020315	ऊडूमलाई श्री सुहासिनी चिटफंड्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U72200TZ2000PTC012209	एन टेक्सोल्व सॉफ्टवेयर (इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड
33	U72200TZ2015PTC021624	गमेन्टेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
34	U72900TZ2016OPC027595	वीरतुस्किल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपिसी)
35	U72900TZ2016PTC027542	स्काईबीन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
36	U72900TZ2016PTC027741	गार्जियन सॉफ्टवेयरस प्राइवेट लिमिटेड
37	U74120TZ2015PTC021711	इंटर प्राइजइंटीटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
38	U74120TZ2016PTC022354	क्रेटीवली टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
39	U74999TZ2016PTC028059	गैंड हॉलिडे डेस्टिनेशन & रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U74999TZ2017PTC028959	हैपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
41	U74999TZ2018PTC030710	अंबेएच एस सि प्राइवेट लिमिटेड
42	U74999TZ2018PTC030776	एयटेक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	पीन सं.	कम्पनी का नाम
43	U92190TZ2015PTC022099	गुटअर्थ वैलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
44	U93090TZ2014PTC020864	स्पाउसअप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

(1) इसके द्वारा यह सूचित दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को ऊपर उल्लिखित कंपनियों से कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त किया है कि वे उनकी कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पायी हैं और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्टर से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

(2) तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्टर से ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।

(3) यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

के. लता परिमलावदना

कंपनी पंजीयक

तमिलनाडू

फार्म सं. एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप धारा (2) और उप धारा (4) और कंपनी (कंपनी पंजीयक के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने या निकालने के मामले में

कोच्चि-682021, दिनांक 28 फरवरी 2019

सं. 621—

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
1	1पेबल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC030458	G95565453
2	ए एंड एन इंफोमार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2006PTC020026	G62080247
3	ए एस एनर्जी टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड	U72900KL2013PTC035237	G90976853
4	ए वी टूर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U63040KL2010PTC025720	G93293918
5	ए4एम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51900KL2015PTC039607	G90830233
6	आदित्य डायरी फार्म (पालक्काड) प्राइवेट लिमिटेड	U01200KL2013PTC034801	G93899656
7	आदित्यदेव टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	U35998KL2016PTC046442	H04948824
8	आकार डिजिटल मीडिया एंड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2010PTC026204	G48199624
9	आलवो कंसल्टंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC030599	G94543097
10	आश्रिता प्रोजेक्ट्स एंड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45309KL2016PTC047165	H41386665
11	अब्दुल रजाक चिट फंडस एंड एजेंसीस प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL1997PTC011433	H43057744
12	एसीडी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC050364	H34597328
13	आचार्य हेल्थ सेंटर एंड कंसल्टंसी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड	U85100KL2009PTC025268	H06191894

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
14	एक्टटेक जियो सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC032728	G52671716
15	ए क्यूब प्रॉपर्टि सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2011PTC028027	G90123142
16	अडिकटीव इनोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2013PTC035636	G59594184
17	अडोनी ट्रेड सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL2012PTC031744	G57045478
18	एड्वान्स्ड ओटोफ्यूल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U51410KL2005PTC018338	G56275878
19	एईकोर शिपिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U63090KL2010PTC026824	G84772342
20	अगना ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	U52390KL2012PTC031743	G76171032
21	अगर्ो इंडस सेक्यूरिटीस प्राईवेट लिमिटेड	U67120KL2006PTC019314	G52833100
22	एयरग्रांडयूर एविएशन प्राईवेट लिमिटेड	U62200KL2015PTC039512	H05752480
23	अजा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC030839	G90034554
24	अजफान होटल्स एंड रिसोर्ट्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2006PTC019515	G91525105
25	अजोयस इन्फो सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2010PTC026010	G46043600
26	ए जे टी डेवलपर्स एंड कंसल्टंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U70100KL2015PTC038833	H42315598
27	अल अमल हाजी उमरा सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U63040KL2012PTC030310	G88782990
28	आलप्पुझा नेचुरल फाइबर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U17119KL2005PTC018518	G42003269
29	आलत्तूर कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2000PTC013810	G74064387
30	अलेटी सेक्यूरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC050778	H36902609
31	अलफराह फॉर्च्यून हेल्थ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U93090KL2017PTC049468	H41701814
32	आल सीसन्स एक्सपिडीशन प्राईवेट लिमिटेड	U63040KL2013PTC035475	G84421585
33	आल्टर मीडिया प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U22100KL2008PTC022715	G45113081
34	अलुक्कल होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2010PTC026673	G72388085
35	अल्विन डायरी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	U15200KL2010PTC026702	G81831232
36	अलविटा कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2010PTC026753	G81182388
37	अल्विन फॉर्म्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC040288	G48155972
38	अमारिज टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2011PTC029626	G91330852
39	अमक्ष ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U52100KL2015PTC038849	G96189618
40	अमेजिंग जॉट्स & पेकेजेस प्राईवेट लिमिटेड	U63040KL2013PTC034646	G90542895
41	अमेट्रिया कंसल्टंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U80301KL2018PTC052509	H31004922
42	अमीसीसबिल्डर्स & डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2011PTC029392	G47282397
43	अम्मा कम्यूनिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड	U92130KL2012PTC030383	G43084763
44	अम्पिस्टोर प्राईवेट लिमिटेड	U52392KL2012PTC031833	H44183440
45	अनालिटी टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2015PTC039007	H32029803
46	आनामलाईस टिंबर ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड	U02002KL1931PTC000016	G75907295
47	अनवीस ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U52520KL2016PTC046061	H23181167



क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
48	अनरो ओटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	U50100KL2009PTC024359	G56502933
49	अनरो रिजोर्ट्स एंड टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2009PTC024362	G56507270
50	अंटलिया मेडिकर प्राईवेट लिमिटेड	U85310KL2016PTC047176	G88819222
51	अंतिल एचआर सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74910KL2008PTC023543	G90383480
52	अनुभूति एक्सपीरियंस प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC047537	H31263346
53	एपीपीके डाटा अनालिटिक्स (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017OPC049239	H33137019
54	अपटेक फेरो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL1996PTC009889	G93143766
55	आरिया स्पाइसेस प्राईवेट लिमिटेड	U15499KL2000PTC014278	G44574192
56	एरियॉन एड्युकेयर लिमिटेड	U80300KL2012PLC030769	G84630581
57	अरंगा एलोयस प्राईवेट लिमिटेड	U27106KL1995PTC009319	G72049497
58	अस्स्युरटेक वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70101KL2008PTC021998	H16248874
59	एस्टार ओटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड	U45309KL1999PTC012898	G44924512
60	एस्टार फ़िनान्शियल सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U67120KL2007PTC020573	G76027861
61	अस्ट्रोलाइट मेनुफ़ैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड	U31500KL2014PTC037506	G51793966
62	आस्ट्रा एंटरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74900KL2013PTC033144	H11802600
63	आत्ममित्रम माइक्रो फ़िनान्स प्राईवेट लिमिटेड	U65910KL2015PTC038978	G46286324
64	अटट्यून फिनिशिंग स्कूल प्राईवेट लिमिटेड	U80302KL2009PTC025199	G87128617
65	औडेंटो मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	U50100KL2011PTC028359	G94862935
66	ओम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2013PTC035249	H21808183
67	औराग्राम गोल्ड एंड पल्लाडियम प्राईवेट लिमिटेड	U74994KL2014PTC037139	G95596532
68	अरोरा फार्म्स एंड प्लांटेशनस प्राईवेट लिमिटेड	U01110KL2017PTC048340	H44750073
69	अवन्ते गरदे शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड	U35100KL2013PTC034087	G49490428
70	अवतार वैली हेल्थ रिसॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U92190KL2013PTC033674	G92340058
71	एक्सलपे सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U52399KL2014PTC036681	G79747218
72	आयुरदर्शन होस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड	U85110KL2007PTC021200	G92553635
73	अजालिया रीयलटर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2016PTC047016	H43344555
74	अज्पयर आइडियास एंड इनीशिएटिव्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900KL2011PTC028622	G93330892
75	बांडब कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2013PTC034572	G92341205
76	बसिलिका कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL1999PTC012979	G92393453
77	बावास बिज़नस प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC048759	H20794574
78	बेपोर मारिटाइम प्राईवेट लिमिटेड	U35100KL2014PTC037027	H29597721
79	बीयुमोंडे स्टील सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC046792	H03803962
80	बीवर्स प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड	U70100KL2011PTC029405	G87023610
81	बेल मेड प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2013PTC033974	G82010067
82	बेलमॉट कार्बन एंड अड्सोर्बेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U36900KL2007PTC021283	G46929899

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
83	बी गुड अकादमी प्राईवेट लिमिटेड	U80903KL2014PTC035968	G46621603
84	भास कोमोडिटीस प्राईवेट लिमिटेड	U52201KL2004PTC017683	G84908714
85	बिग बीट्स लिमिटेड	U92100KL2014PLC036270	G91318436
86	बिकौरा पावर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड	U31500KL2013PTC033737	G57205270
87	बिकटोप सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2016PTC045569	H02557429
88	बिनफार बिल्डर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2009PTC023945	G82083395
89	बियोन साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U52100KL2009PTC024028	G43728781
90	बीजलाइन आईटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2015PTC037947	G76459700
91	बी जे इंडस्ट्रियल सपोर्ट सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U45208KL2012PTC030800	G91336701
92	ब्लिस्स अबोड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2008PTC023579	G87891131
93	ब्लूस्काई ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड	U67120KL2008PTC023310	G90885948
94	ब्लूवुड एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	U70100KL2014PTC036949	G74170929
95	ब्रिकबॉन्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45201KL1994PTC008059	G68349430
96	ब्राइट इंडिया एचआर मेनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC030788	G45602604
97	ब्राइटलाइन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45309KL2017PTC047795	G78686995
98	ब्रुनीयर बिजिनेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74200KL2012PTC031864	H22369235
99	बटरफ्लाई ईवेंट मेनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U74900KL2010PTC026275	G60768587
100	बटरफ्लाई टेक्नोलोजी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2008PTC021971	H41781006
101	बाईविन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U51901KL2002PTC015756	G80634694
102	सीएसीआई कोस्मोस्युटिक्ल्स प्राईवेट लिमिटेड	U51391KL2011PTC029896	G52717436
103	काडमियम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2013PTC033145	G69953172
104	कालीकट रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	U70102KL2005PTC018774	G49682057
105	कैरियर सेंटर एड्युकेशनल एंड रिसर्च सर्वीसेस प्राईवेट लिमिटेड	U80220KL2012PTC032433	H44070480
106	कारमेल विल्लास एंड अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2012PTC032540	G56230816
107	केसल पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U21017KL2010PTC026420	G85000719
108	कास्टस टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2013PTC034559	H32802266
109	केटालिस्ट्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2013PTC034890	H39897293
110	सेंट्रिक्स कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC030776	G52701307
111	सेंचुरीअरोमा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2015PTC038550	G92397470
112	सेरिबटेक अकादमी प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2011PTC028074	G47569777
113	चाकोलास इंटरट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL1947PTC000262	G44531184
114	चाँद क्रिएशन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U92120KL2012PTC031784	G59229070
115	चंगाराम रीयल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70100KL2013PTC035011	G85435006
116	चीयरअप होलिडेस प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2011PTC029496	G44246205
117	चेलप्पुरत्तु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2009PTC023685	G45624848

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
118	केमी इंडस्ट्रियल सप्लाइ प्राइवेट लिमिटेड	U24299KL2014PTC036475	G78874260
119	चैपज़हा डेवलपर्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200KL2009PTC025003	H21341839
120	चैपरो मशीन्स एंड स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29308KL2013PTC035264	H35234525
121	चेरुपुष्पम निधि लिमिटेड	U65999KL2015PLC039187	H41887704
122	चेसलास प्लास्टिक एंड मेटल इंडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	U25209KL1982PTC003504	G68783828
123	चिकित्सों हेल्थकेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U85310KL2017PTC048270	G88138045
124	चिल्लीस कैटरिंग प्राइवेट लिमिटेड	U55101KL2009PTC024686	H17815861
125	चिपेज इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2015PTC038198	G92961796
126	चिट्टिस्सेरी चिट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2010PTC025925	H31791775
127	चोव्वन्नूर कुरीस एंड फ़िनान्स प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL1995PTC008555	G68674167
128	सिका इन्फ़्रा प्राइवेट लिमिटेड	U70100KL2013PTC035727	G83392803
129	सिटी टेक सेक्यूरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U52335KL2011PTC028028	G49074735
130	सिविल लेन कुरीस प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2002PTC015306	G79869582
131	सीजेएजे रीयल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100KL2015PTC039174	G65082133
132	सीजेएजे वेलनेस ट्रीटमेंट एंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड	U63000KL2015PTC039173	G65075863
133	सीजे फणवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U72900KL2012PTC031977	G75351700
134	सीजेएम लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U63030KL2016PTC046039	H25928912
135	क्लीन सिटी कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	U74140KL1997PTC011752	G85578037
136	क्लिनकेयर रिसर्च सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U73100KL2012PTC032347	G90559600
137	क्लाउडअनबाउंड टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	U72900KL2015PTC037778	H35545250
138	कोचिन असे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U93090KL2001PTC014442	H17188301
139	कोचिन हेल्थकेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U52310KL2007PTC021183	G85372266
140	कोचिन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	U51909KL1943PLC000225	G55027015
141	कोकोहोल टूल्स एंड ट्रावेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040KL2005PTC017918	G57155970
142	कोमिकलान पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड	U22100KL2013PTC034442	G78102571
143	कोम्प्रेसो टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2011PTC028005	G91197095
144	कॉकोर्ड कुरीस एंड लोन्स प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL1990PTC005622	G92223759
145	कंसोलोजिक टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	U72900KL2013PTC033474	G94346004
146	क्रिएटर्स डेन प्राइवेट लिमिटेड	U92100KL2013PTC034146	G75892372
147	क्रोसओवर एड्युकेशनल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140KL2013PTC033744	G94245206
148	सीआरआर एंड पीएनजी फ़िनान्शियल सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड	U67190KL2011PTC029574	G54253943
149	क्रिस्टलार्डेन हेल्थ सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2015PTC038340	G93035764
150	क्यूबिटार3डी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC048460	H26486977
151	कस्टमर्स निधि लिमिटेड	U65900KL2017PLC048538	G93818359
152	सीवीएम इन्वेस्टमेंट्स एंड होलडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC046265	G76060904

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
153	सीनोशुवर कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2006PTC019184	H34289884
154	डान्स हाउस प्लान्स प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2006PTC019685	H02151926
155	डार ओप्टिक्स ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड	U51507KL2011PTC029288	H05093265
156	डायाराफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2016PTC046946	H14437537
157	डाटोरा आईटीए सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC031337	G95723367
158	दीपक ग्लास वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	U26101KL2005PTC017964	H12837076
159	डीन मेनेजमेंट कंसल्टंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2014PTC037646	H25997826
160	डेमड्यूस टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC031466	H44561876
161	देवप्रभा कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL1981PTC003416	G92283050
162	देवीस बीजिनेस एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	U70100KL2011PTC027994	G55053235
163	देववर्क्स सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2014PTC037502	G57174732
164	डेक्स्तोवेय सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2014PTC037338	G80911571
165	धनरेखा कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL1997PTC011430	G46829545
166	धानश्री चिट्ठीस एंड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL1990PTC005587	G88093075
167	धनतीरम चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2009PTC024785	G85968964
168	धनवर्धिनी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2011PTC030082	G47321195
169	धनविजया निधि लिमिटेड	U65900KL2015PLC039056	H22010714
170	डिजिला डिवाइसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U51505KL2000PTC013777	G82170267
171	डाइरेक्ट एड्ज कंसल्टंसी एंड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2004PTC016908	G43128727
172	ड्रीम जर्नीस ट्रैवल हब प्राईवेट लिमिटेड	U63040KL2013PTC034602	G59667840
173	ड्रिजिल ज्यूवलर्स प्राईवेट लिमिटेड	U51398KL2009PTC024838	G59886994
174	द्युति सोलार एंटरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड	U40106KL2016PTC046169	H21649207
175	ईजी बुकिंग सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	U63040KL2014PTC036351	G79916383
176	एफरमिंट इंडिया लिमिटेड	U24246KL1994PLC008321	G44382273
177	इलाक्ट्रोनिफाई टेक्नोलोजीस एंड सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2011PTC028041	G88841747
178	एमेल सॉफ्ट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2016PTC040141	H21517214
179	एमजीइंग सॉफ्टलैब्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2013PTC033447	G59767053
180	एम्पयर एक्स्ट्राक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U36100KL2013PTC035757	G88360011
181	एम्पायरस्टार कन्वेंशन सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	U74120KL2015PTC039358	G75590588
182	एनेबलर टेकमार्केटिंग एड्वाइसर प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC031032	H42437905
183	एंड यूरा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2012PTC030491	G44960086
184	एनिग्मा सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2008PTC022323	G44014579
185	एनयुरगा टेक्नोलोजीस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U73100KL2016FTC039913	H24030157
186	ईटीएम चिट्ठीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2010PTC026424	G43609353
187	एट्रान्स लोजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	U63040KL2013PTC033357	H18413930

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
188	यूलान आडियास एंड कोन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74300KL2011PTC028831	G82078320
189	युथालिया बिजिनेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900KL2016PTC040189	G59372342
190	ईवीएम होस्पिटालिटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101KL2011PTC028400	G91814582
191	एक्सलिसयर कार्स प्राइवेट लिमिटेड	U50400KL2014PTC036100	G61933347
192	एक्सेलोवेट प्राइवेट लिमिटेड	U72900KL2016PTC045878	H07139959
193	आइनेक्स सेफ्टी एंड सेक्यूरिटी कंसल्टंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC045575	H43328541
194	फेबी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2014PTC037324	G90812223
195	फैमिली स्पाइसेस एंड कॉडीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15410KL2013PTC034329	G72968043
196	फरीदा जेवलरी प्राइवेट लिमिटेड	U51398KL2013PTC034129	G78104700
197	फार्मबाक्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U01100KL2016PTC045808	H31783889
198	फेशन लेडी जेवल्स एंड जेम्स प्राइवेट लिमिटेड	U52393KL2007PTC020519	G49177397
199	फाया एवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड(ओपीसी)	U92490KL2015OPC038997	H44240190
200	फिफी प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200KL2010PTC026106	G76601715
201	फिन रोबोटिक्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2015PTC039331	H14184683
202	फिन टेक्स फ़्यूजन बॉडी रेप्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U22110KL2007PTC020441	G44390193
203	फाइन गोल्ड मेनुफेचरर्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड	U36911KL2006PTC020101	G89283840
204	फायरशेल इंजीनीयर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74200KL2012PTC030935	G87345328
205	फलीटऑटो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U22219KL2009PTC024212	H42929356
206	फ्लोरेन्स द हीलिंग हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड	U85200KL2018PTC052137	H32793671
207	फ्लोरिच एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51909KL2015PTC038528	G92084235
208	फ़ोरआल लोजीस्टिक्स एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U52390KL2015PTC039674	G91974238
209	फोर्ट किचनेट एंड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U28111KL2011PTC029747	H00304303
210	फोरटेम चिट फंडस प्राइवेट लिमिटेड	U67100KL2016PTC047615	H43646439
211	फॉरयूमेट्रिमोनी ऑनलाइन सर्विसेस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2016OPC046277	G80339120
212	फॉरमेन्स फूटकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U52323KL2013PTC033688	G95318176
213	फोजिलो टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC032146	G45018918
214	फ़ेश थोट्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900KL2013PTC034763	G89595318
215	फ्रेंड्स कुरीस एंड ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL1997PTC011583	H43039031
216	फुल हाऊस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2013PTC034038	G90271602
217	फिंगर इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड	U72900KL2017PTC049981	H34204131
218	जीएसएस प्रोफेशनल अकादमी प्राइवेट लिमिटेड	U80301KL1993PTC007119	H04643219
219	जीएएम विशन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC046226	H20480117
220	गैमक्सीन बीजिनेस नेटवर्किंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2014PTC037217	H14177604
221	जीबीएफ़ एनर्जी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC050076	H21563275
222	जीपीबीओ सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900KL2006PTC019982	G58184011

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
223	जीडीएके ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL2016PTC046488	G81690075
224	जियो एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL2007PTC020247	G80063977
225	जिओमेट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC032091	G91671511
226	गिलगाल कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2012PTC030658	G45142734
227	ग्लेज टेक कन्स्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	U51432KL2013PTC033553	G85257335
228	ग्लोबल क्रोप केयर प्राईवेट लिमिटेड	U51501KL2012PTC032454	G90323726
229	ग्लोबल मीडिया रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	U80302KL2012PTC032141	G94739901
230	ग्लोब प्रोटेक्शन टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	U37200KL2013PTC033162	G70573142
231	ग्लोबवेल कोन्स्ट्रक्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	U45202KL2014PTC037450	G51304061
232	ग्लोबिक्स फूड मार्ट प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2016PTC039872	G77417772
233	ग्लॉसीमोब आईटी प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC031910	G82036682
234	जीएनएस सेक्यूरिटी सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC047497	H00594655
235	गो टॉक मोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	U51395KL2014PTC037443	H44175438
236	गोल्डनहिल्स सेक्यूरिटीस प्राईवेट लिमिटेड	U67120KL2008PTC022632	G42649657
237	ग्रेस स्टॉक प्राईवेट लिमिटेड	U67120KL2005PTC018711	H40986416
238	ग्राफिक्स आइलैंड एंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U74940KL2012PTC032197	G59184416
239	ग्रीन इंडिया रिन्यूबल्स प्राईवेट लिमिटेड	U51505KL2002PTC015395	H37041753
240	ग्रीनकेरला होम शोपी एंड मार्केटिंग लिमिटेड	U52100KL2016PLC046743	G81118879
241	ग्रीनटी स्पा रिसॉर्ट्स इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2008PTC022331	G80262520
242	ग्रूप 10 एंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U92490KL2013PTC035644	H40853921
243	हड्स फर्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	U24230KL2015PTC038499	G60403102
244	हमारा बाजार अगोरा प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC048520	H43156702
245	हेडवे कंसल्टंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74910KL2005PTC018252	H43456839
246	हेडमार्क इंडिया कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	U45400KL2013PTC034210	G92579648
247	हीरा निधि लिमिटेड	U65100KL2017PLC048573	H28887180
248	हेरकुलीस स्टील रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड	U27109KL2011PTC029273	G91981993
249	हाई लुक बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70102KL2012PTC030419	G82172396
250	हाई पवर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2012PTC030667	G80368707
251	हाई टेक वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	U90000KL2013PTC035643	G87060067
252	हिमसाइलम कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	U45201KL2003PTC015969	G85949535
253	हिनवाक इन्टरनेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2015PTC038555	G80300098
254	हीरा गोल्ड एंड डाइमण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	U52393KL2015PTC038887	H15299746
255	हाई-टेक गार्सकेट्स प्राईवेट लिमिटेड	U28997KL2012PTC031334	G93650018
256	होलिग्रेस सुपरमार्केट प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL1998PTC012307	G45693272
257	होमग्रीन्स एग्रि प्राईवेट लिमिटेड	U01100KL2014PTC037170	G73500431

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
258	होमलिकर्स कम्यूनिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड	U64204KL2012PTC031280	H42285775
259	हूब्ला साइबर टूल्स एंड टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2010PTC025615	H42678219
260	होरीज़ोन मेडिकल सिटी प्राईवेट लिमिटेड	U85110KL2015PTC039433	G77343358
261	एचआरसी हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	U85100KL2008PTC022241	G55811830
262	हयूजीन मेडिकल सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U52609KL2017PTC048265	G89853717
263	हाइब्रिड इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड	U51900KL2012PTC031283	G42869453
264	आईएएमटी एड्यूसेंटर प्राईवेट लिमिटेड	U80903KL2014PTC036506	G79159364
265	आईबिल्डेंसर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2016PTC047188	H40857898
266	आइकोनिक ईवंट मेनेजमेंट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC046687	G60872579
267	आइडियस वोकेशनल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U80302KL2012PTC032297	G48714943
268	आईईसीए मेक्काट प्राईवेट लिमिटेड	U74210KL1996PTC010408	G87229829
269	आईफार्मक्लब्स प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2016PTC047428	G92537828
270	इमेजिओन टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2017PTC050290	H14106843
271	इंडेफिनिटाइजीनियरिंग सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC048440	G92236819
272	इंडिपेंडेंट ब्रोडकास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	U92130KL2011PTC029192	G43086677
273	इंडियाबर्डहॉलिडेज़ प्राईवेट लिमिटेड	U63040KL2013PTC033479	G84279579
274	इंद्रनीलमज्यूवलरीमार्ट (तिरु) प्राईवेट लिमिटेड	U36911KL2006PTC019933	G88954888
275	इन्फगे टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2010PTC025866	G43298884
276	इन्फोबिड्सकन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC032493	G94201381
277	इन्फोर्मासाइबर सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2015PTC037953	G61445334
278	इन्फोसाइन ईकॉम सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC047513	H32841637
279	इंकल-कीन्फ्रा इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	U74900KL2010PLC025556	H26667949
280	इंमोटेकऑनलाइन सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2015PTC039327	H27062181
281	इन्नोह कयूर प्राईवेट लिमिटेड	U85100KL2016PTC040049	H02380863
282	इन्नुकंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	U45201KL1996PTC010765	H06010672
283	इन्स्प्रेमएनर्जि सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U40106KL2016PTC046967	H43578376
284	इंटेगरारेबिज़नस सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2007PTC021498	G91394338
285	इंटेलेकसाअकैडमी प्राईवेट लिमिटेड	U80904KL2016PTC047655	G78740198
286	इन्विर्टुयल नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2017PTC051366	H26835140
287	आईपीएसआर ट्रेनिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2006PTC019758	G84690536
288	आईरिसिंड इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2017PTC048658	H44283463
289	आईवेबटयून सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC031279	G87926473
290	आईवेलेग एड्युकॉम प्राईवेट लिमिटेड	U80301KL2016PTC040414	H34532150
291	जे.आर.जे प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U45500KL2017PTC050579	H32362659
292	जेकब्स कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	U45201KL2002PTC015228	H27220607

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
293	जनफ्रेश कल्टीवेटर्स एंड अग्रोप्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	U01120KL2009PTC024691	G44886752
294	जानकी होटेल्स रिजॉर्ट्स & हैल्थ सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड	U55101KL2013PTC034542	G93352748
295	जासफार्मस एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	U01122KL1987PTC004933	H14819155
296	जयटीरबर प्राइवेट लिमिटेड	U25199KL1990PTC005853	G40725269
297	जावाकास्टडो मिसाइलस प्राइवेट लिमिटेड	U26955KL2009PTC024555	H44128213
298	जेडीचिट सकजहक्कूडूम प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2015PTC038912	G81564809
299	जीवन किरण चिटस प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2015PTC038237	G87743803
300	जेफटेनरिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101KL2007PTC021422	G75870196
301	जेनुस्काक्कारा प्रॉपर्टीज & डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45309KL2017PTC049691	H33203415
302	जेवेल ऑफ कोचिन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65993KL1996PTC010045	G85414753
303	ज्यूवल सिटी ज्वेलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U36996KL2009PTC024750	G45377538
304	जेआईआई एनर्जिसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U40300KL2017PTC047804	H14431639
305	जोग्रांड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U52590KL2015PTC039191	H33049883
306	जोसस होलीडे एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101KL2008PTC022449	H15644164
307	जोयलुक्क सिल्क लिमिटेड	U52321KL2013PLC034902	H17580432
308	जेआरपी इंटेलिजेंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900KL2016PTC046411	G72619323
309	जेएसएनमैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51100KL2016PTC047560	G93722924
310	जुबलीलिजर्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101KL2013PTC033233	G76480383
311	जम्पर्सप्रीमियरलीग प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC046532	H44421113
312	जेवी स्क्वायर डेवलपर्स लिमिटेड	U70101KL2015PLC037851	G80026735
313	ज्योतिर्गमया इन्फोविजन प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2011PTC028828	G44323228
314	ज्योतिष पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U22100KL2014PTC037417	G91754051
315	के सीरिजॉर्ट्स एंड प्रॉपर्टीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U55101KL2008PTC023363	G73013211
316	के- फोर्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140KL2008PTC022120	G90109810
317	के&जे डबल्यू कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140KL2013PTC033810	G44764405
318	के.एज.स्पाइसेस एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U15400KL2009PTC023984	G94125937
319	के.के.कुईसीन्स एंड बीवरेजीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	U15500KL2010PTC027175	G42540872
320	कडलस्सेरी कुरीस प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2011PTC029356	G42463562
321	कडवत्तु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45500KL2016PTC047037	H33761008
322	कैवलाया चिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2011PTC029642	G83414730
323	कलवारा कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड	U55204KL1995PTC009239	G93731420
324	कामिल एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U80903KL2008PTC023010	G50783315
325	कांजिरामुक्क बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200KL2008PTC022378	H08299430
326	कन्नूरमेडसिटी इंटरनेशनल हॉस्पिटल & रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2014PTC037371	H03742376



क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
327	केएपी इंडिया रिटेलर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102KL2009PTC025128	G87155156
328	कारक्कोबिल कंसल्टेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74140KL2007PTC020201	G89647374
329	कारालील सेल्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	U51909KL2017OPC049949	H28653608
330	काट्टिलाप्पुवम विलेज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45202KL2014PTC036824	G81120479
331	कटुन्सएंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U72900KL2002PTC015375	H43002591
332	केम्बर बायलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U28123KL2013PTC034009	G92946854
333	केनकेयरटैक प्राइवेट लिमिटेड	U52100KL2013PTC035123	H29155397
334	केनसेलइन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड	U72900KL2016PTC040172	H44724771
335	केरला नट फूड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U15493KL2000PTC013658	G79150439
336	केरला स्टेट डिटर्जेंट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	U24243KL1976SGC002816	G87776050
337	खन्ना होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101KL2004PTC017228	G79924338
338	खिबा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U52399KL2015PTC038665	G89848055
339	कीलिमापेपो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45202KL2016PTC046866	H41569286
340	किन्डेज़होटेल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101KL2010PTC025862	G82006206
341	किंग्सवे डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200KL2011PTC027539	G70107321
342	कीजहक्के अट्रू चिटी प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2005PTC017961	G74702168
343	नॉलेज प्रोवाइडर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	U74140KL2014PTC037676	G75057521
344	कोचि एक्स्पेट्रिएट्स एंटरप्राइज़स प्राइवेट लिमिटेड	U25190KL2013PTC033908	G92636190
345	कोल्लम इंस्टीट्यूट ऑफरिसर्च एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड	U73100KL2010PTC026183	G85361475
346	कोल्लमपरम्बिल आयुर्वेदिकसेवास प्राइवेट लिमिटेड	U85191KL2008PTC021834	G88125810
347	कोनीसबिल्डर्स एंड कांट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70101KL2013PTC033733	G94985470
348	कोशमट्टमहाउसिंगफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	U65922KL2016PTC039943	H42057091
349	कोयन्कोहॉस्पिटलिटीलिमिटेड	U65910KL1993PLC006999	G63757918
350	क्रयिका ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड	U52399KL2015PTC037859	G96344015
351	क्रिस्टोन रंगमनि कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74140KL2011PTC028183	G81773038
352	क्रिया-जेवेलकेसेस एंड डिस्प्लेवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900KL2013PTC034182	G92741818
353	क्रिन्स सॉफ्टवेयर सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2007PTC021376	G45901642
354	कुन्तत्तुनाडु प्लास्टिक क्लस्टरकंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड	U25193KL2013PTC035693	G62052303
355	कुरुप्पुतरा चिटफंडज प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2014PTC036833	H27131473
356	केवीपीशिपिंगएजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड	U63090KL2000PTC013663	G73946642
357	कैपुरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2015PTC038770	G78272234
358	लक्कदीव्स लगूनारिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101LD2008PTC019303	G44401834
359	लैंडरकुरीस प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2013PTC035226	G88441324
360	लीडलर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72501KL2018PTC053344	H44185411
361	ली वैल्ली रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101KL2015PTC038082	H30291728

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
362	लिविंग्स्टनऑफशोरटेक्नोलजी सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2011PTC029285	G66459520
363	लियट्रिस टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2010PTC027119	G43208966
364	लिचीचिटफंडज (वडकरा) प्राईवेट लिमिटेड	U65990KL2016PTC046135	H04864765
365	लाइफरेसहैल्थकेयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U85100KL2009PTC023888	G87517215
366	लिलियन्समेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड	U33110KL2011PTC028941	H44215374
367	लीमापैट&पॉलीमर प्राईवेट लिमिटेड	U25200KL2012PTC030444	G88139563
368	लीमासेल्स प्राईवेट लिमिटेड	U51900KL2010PTC027118	G88167101
369	लीमाव्हाइट टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2017PTC048496	H34968222
370	लिविंग वर्ल्डबिल्डिंगस्टूडिओ प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2012PTC031802	G84861707
371	लिवोकेयरहैल्थकेयर सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2016PTC046626	G87722138
372	लॉगइन्फोसटैकनो सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC049271	H21659024
373	लोसम टेक्नोलॉजीज एंड सोल्युशंस प्राईवेटलिमिटेड	U72200KL2012PTC030655	H43014836
374	लोटसगोल्डज्वेलएक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	U52393KL2013PTC035185	G87152856
375	एलआरआर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U80903KL2014PTC036042	G78152634
376	एलवाईएसएसलाइफसाइन्स प्राईवेट लिमिटेड	U24230KL2012PTC032750	H40984494
377	एम जे एसबिल्डिंगमैटीरियल्स प्राईवेट लिमिटेड	U52341KL2012PTC032736	G92004209
378	एम एमबिल्डिंग सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U45300KL2013PTC034869	G69029825
379	एम एम आईचिट प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2014PTC036343	H26080846
380	एम एमस्क्वायरक्लिनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	U85110KL2014PTC036568	G69031276
381	एम वी एम फूडफॉर्मेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U15312KL1996PTC010404	G91786111
382	मानसप्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC031259	G69285195
383	मैजिक प्लनेटएवेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2014PTC036678	G49846850
384	महा गुरुदेवाएंटरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड	U52609KL2017PTC049423	G96282256
385	मजेस्टिकमार्बलप्रोडक्टस इंडियालिमिटेड	U14101KL1985PLC004229	G68496538
386	मलबारकिचनलिमिटेड	U28931KL1996PLC010068	G90845157
387	मलबारमिनेरल्स एंड मशीनरीसप्राईवेटलिमिटेड	U74200KL2013PTC035189	G56611924
388	मलयालम एडिबल्स इंडियालिमिटेड	U15127KL1999PLC012964	G68546944
389	मलयालम सोलवेंट एक्स्ट्राक्शंस लिमिटेड	U15143KL1994PLC008181	G68546407
390	मलयिल प्लास्टिकप्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड	U25200KL2012PTC032479	G75220228
391	मल्लेलिलडेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2015PTC039479	G69750461
392	मनिग्रामम ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL2015PTC038011	G71133599
393	मान्स एंटरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड	U93090KL2016PTC046977	H29250768
394	मारियापैट प्राईवेट लिमिटेड	U25209KL2004PTC017684	H00046755
395	मर्षाबिजनस सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2015PTC037793	G75073403
396	मासकेबलटेलीविजननेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC046260	G93479046

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
397	मैथ्यू एंड मैथ्यूडाइरीज एंड अग्रोफार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	U01120KL2014PTC036585	H23240443
398	मातृज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड	U36911KL2010PTC026802	G47272307
399	मैट्रिक्ससाइबरटेक प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2014PTC036145	G81641482
400	महुांचेरीबोटयार्ड प्राईवेट लिमिटेड	U35100KL2013PTC033538	G88553540
401	मइत्तुरियलटोर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70100KL2014PTC037569	H43571868
402	मावेलीट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL1990PTC005771	G51869287
403	मयूरीकुरीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2011PTC028695	G50872209
404	मेकेनिकल इक्विपमेंटलीज एंड सप्लाई कंपनी प्राईवेटलिमिटेड	U71200KL2013PTC033775	G81587693
405	मेडिकेयर हैल्थ सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC031355	G95030516
406	मेडीसर्ज बायो हैल्थ प्राईवेट लिमिटेड	U52310KL2012PTC032840	G88137872
407	मेडरेक्स सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2011PTC029462	G94434768
408	मेडस्केप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स प्राईवेट लिमिटेड	U85100KL2015PTC038791	G73578973
409	मेगालोजिक सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL1997PTC011418	G89366793
410	मेल्लिन्को बिल्डर्स एंड डेवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70102KL2010PTC026805	G46633277
411	मेन्नेसरिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2011PTC029335	G43609734
412	मेनन्स बिजिनेस कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC030217	G76589928
413	मेन्टल दा प्राईवेट लिमिटेड	U85300KL2016PTC046823	G87722906
414	मेरिया प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड	U01100KL2013PTC033172	H08617284
415	मेसामी टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2008PTC022099	G89778773
416	मेसबा होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2000PTC013848	G80462401
417	मेट्कार्ट बिल्डिंग सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL2017PTC050852	H41888025
418	मेट्रो 360 सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74900KL2016PTC039876	H33497546
419	मिडिल ईस्ट ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL2002PTC015792	H30243976
420	मिल एनरटैक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2015PTC039804	H27129766
421	मिल्कि आयुर स्पावैलनेस प्राईवेट लिमिटेड	U85100KL2016PTC039988	G94224904
422	मीनार टी एम टी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	U28991KL2013PTC033499	H05464607
423	माइंडरूट नॉलेज सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2011PTC028156	G63284970
424	माइंडफायर टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2011PTC028171	G94859766
425	मिराक्कलगीनहर्बलन्यूट्रिमेंट्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	U24233KL2010PTC026529	G85292787
426	मिस्टीब्लूहॉलिडेज़होम्स प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2012PTC032622	H30480925
427	मिक्सवेल रेडीमिक्स कोन्क्रीट प्राईवेट लिमिटेड	U26940KL2013PTC035733	G96060496
428	मोडिनीफाई टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2014PTC036666	G92771625
429	मूनलाइट केबल टीवी नेटवर्क एंड चैनल प्राईवेट लिमिटेड	U92130KL2008PTC022759	G85353829
430	माउंटेन स्पाइसस लिमिटेड	U15495KL1996PLC009965	G43852367

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
431	एम एस डोट्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC032973	G69513026
432	मूल्लक्कल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2013PTC033546	G93146637
433	मुतुवरा कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL1998PTC012592	G56396559
434	एम वी के ए ट्रेड एंड एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड	U52100KL2011PTC027382	G94135068
435	एन पी प्रॉपर्टीज एंड रिजॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2012PTC030840	H18350728
436	नडवरम्बा रिटेल प्राईवेट लिमिटेड	U52393KL2013PTC034285	G83404863
437	नागार्जुना विल्लास एंड अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U70102KL2014PTC036730	G88492012
438	नमिताएंटरप्राईसेस प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2010PTC025452	H00721472
439	नंदवनम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2012PTC032116	G90006396
440	नानजी तोपनभाई स्पाइस प्राईवेट लिमिटेड	U15495KL2008PTC023280	G92941509
441	नापजोन आईटी सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2014PTC036297	G61951042
442	नसीमाफ्राइड चिकेन ट्रेडर्स & डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL2016PTC046994	G82072943
443	नौटिलस कंसोर्टीयम प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2013PTC034248	H00022970
444	नवाजी इलक्द्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U51395KL2008PTC023410	G45101094
445	नयनतारा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL1997PTC011878	G82249616
446	नीड्स 24 ऑनलाइन सुपर मार्केट प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC049910	H23029622
447	नियोवा लाइटिंग सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U52335KL2012PTC032306	G84477751
448	नेसफेर्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2013PTC035752	G81263972
449	नेटुगतर इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2011PTC027499	G88082987
450	नेटाडियल कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U45201KL1995PTC009116	H11149325
451	न्यूटाउन कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2013PTC034849	H27731165
452	न्यूहोप प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U70101KL1996PTC010189	G74486564
453	न्यूइंडियन वेयेजस प्राईवेट लिमिटेड	U63040KL2004PTC016840	G45461886
454	निबाल टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2015PTC038782	G78634920
455	नाइस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U80301KL2010PTC026251	G46662011
456	नाइन इंडियन आईटी वर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2013PTC033246	G78550985
457	निरकुडम चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2010PTC025804	G93484038
458	नितफार टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U29299KL2012PTC031824	H00168880
459	नितोर टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2010PTC026671	H04831954
460	एन आर सी एरुफिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74900KL2012FTC031973	G87239398
461	एन आर आईहोमडेस्क प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2006PTC019259	G70955141
462	नलटोन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2017PTC047896	H41534546
463	ओयसिसन्यूट्रा मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड	U15400KL2013PTC033191	G92022961
464	ओब्रेयन एसोसिएट्स एजुकेशनल कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74995KL2013PTC033322	G89025803
465	ओलेक्सोर टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC031097	G43722016

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
466	ऑलिव इन्स्टीट्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U80301KL2005PTC018782	G47228705
467	ओणाप्पुरक्कल एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U01100KL2016PTC046662	G90102641
468	ओरकिड कम्यूनिकेशन त्रिशूर प्राइवेट लिमिटेड	U92132KL2009PTC025234	G92398411
469	ऑरिन ट्रेडिंग एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड	U51399KL1999PTC012984	G84050046
470	ओरलेंडो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U24120KL2009PTC024778	G43850353
471	अवर ऑन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	U67120KL2012PTC031196	G90033010
472	औरा इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U51505KL2013PTC035476	G81038432
473	पाची ऑटो कोम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U29199KL2009PTC023687	G44575488
474	पेडिंगटन अकैडमी प्राइवेट लिमिटेड	U80904KL2015PTC039208	G87898896
475	पाला इन्फोसर्व प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL1998PTC012502	G93637023
476	पालक्काएक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900KL2015PTC039529	G88118930
477	पालामलई स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	U27104KL1995PTC009317	G72050826
478	पल्लिवयल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	U27109KL2013PTC034415	G94649670
479	पणिककेट्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200KL2013PTC033109	G80109929
480	पंतलोडिल ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U52311KL2013PTC035107	G52745908
481	पप्पू सहर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)	U24247KL2015OPC038751	H30442065
482	परशुराम इंजीनियरिंग कण्णूर प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2006PTC019395	G85064178
483	परयत्तबिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200KL2008PTC023226	G86841327
484	पार्कसनटी प्रोड्यूस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U15491KL2003PTC016174	G90099896
485	पार्ट सिलंडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U28121KL2012PTC030949	G84911668
486	पासवर्ड मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC030440	G91858761
487	पतिपरम्बन शॉपिंग मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड	U45300KL2015PTC038591	H16272254
488	पियाफोल ट्रेड्स एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51909KL2008PTC022498	H29678067
489	पी सी ट्रेडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	U51393KL2008PTC023191	G59734202
490	पीवीस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड	U23201KL1994PLC007828	G76095751
491	पेगासूस ई-पब्लिशिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72400KL2012PTC032455	G92956093
492	पेपनीरपैकेज प्राइवेट लिमिटेड	U15541KL2013PTC033921	G60580172
493	पेपट्यून एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	U92190KL2014PTC037510	G75649160
494	पेरवूर चिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2012PTC031662	G94030772
495	पेरिशिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2014PTC037603	G78707106
496	पेरुमा कुरीस प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2010PTC025931	H21061742
497	पेरुमालिल फाउंडेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U70100KL2013PTC033146	G86795424
498	पेरुमाल अल्लोईस प्राइवेट लिमिटेड	U27106KL1995PTC009318	G72051543
499	पीजीक्वेस्ट ऑनलाइन. कॉम प्राइवेट लिमिटेड	U80902KL2011PTC030024	H20505525
500	पिनसम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51432KL2013PTC033896	G92380914

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
501	पिक्चु आईटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2017PTC050643	G78881257
502	प्लानेट होम्स एंड विल्लास प्राईवेट लिमिटेड	U45201KL2006PTC019811	G88766241
503	प्लानेट वारियर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC047253	H33588807
504	प्लान्टवूड इंटेरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	U36101KL2000PTC014093	H31992043
505	पोआब्स एनवायरो टैक प्राईवेट लिमिटेड	U24123KL1999PTC013375	G58979790
506	पोल्यू टैक एनवायरो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	U29200KL2013PTC034892	G60888526
507	पूलवो आई.टी सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2013PTC033048	G73543118
508	पावरलिक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U51395KL2002PTC015644	H08199564
509	प्रवासी केरला टूरिज्म एंटरप्राइसेस लिमिटेड	U63040KL2001PLC014888	H32677973
510	प्रवासी ओरगेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड	U01404KL2015PTC039271	G76896422
511	प्रेस्टो फ्रैट सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U63010KL2012PTC031312	G95390274
512	प्राइमए स्कापेड्स प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2012PTC032152	H29680212
513	पृथ्वी फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2013PTC034880	G92407840
514	प्रॉपर्टी पार्क रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70100KL2013PTC035360	H20469466
515	प्रोक्सिमा कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2008PTC023582	G56973654
516	प्रूडेंट एगो फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	U01100KL2010PTC026186	G85362622
517	पुलियन्नूर कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2010PTC026710	H19837376
518	प्यूर टोनस्पेशलिस्ट प्राईवेट लिमिटेड	U52310KL2014PTC037677	H16985483
519	पुरिंडिया वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL2014PTC036423	G93943066
520	पूर्णरोग्य होलिस्टिक हैल्थ केयर एंड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड	U24232KL2015PTC039050	G76889617
521	पुत्तूर गैनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड	U14102KL2011PTC029124	G61979472
522	क्यू क्लास फर्निचर प्राईवेट लिमिटेड	U36100KL2013PTC034520	G92896331
523	क्यूटच टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2010PTC025829	G52508900
524	क्वाडिनियम अल्गोलिटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC032532	G78804556
525	क्वेष एंटरप्राइसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL2012PTC031178	G87142501
526	क्विन्स ऑफ शोर सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2011PTC028004	H06982953
527	आरस्कवायर डिजिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2011PTC029994	H43913987
528	रहमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2009PTC024417	G93947703
529	राजब लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	U63090KL2011PTC029076	G43595115
530	राजधानी होटल्स एंड टूरिस्ट एंटर प्राईसेस प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL1982PTC003655	G76159722
531	रामतरिमान क्रिएटिव विजुअल्स एंड स्टूडियोस प्राईवेट लिमिटेड	U92190KL2010PTC026192	G80927932
532	रामचंद्रन एंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U67120KL1992PTC006488	G92856293
533	रविस्वन्स कंसल्टेंसी एंड इन्फो सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2010PTC026080	G62028485
534	रियलटाइमस्कूल ऑफ बिज़नेस एंड फ़ाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	U80300KL2010PTC025697	G81085060
535	रेडइनवेंट टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2011PTC028423	G93418945

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
536	रेड स्टारएफसीत्रिशूर प्राईवेट लिमिटेड	U92490KL2016PTC045933	G94566197
537	रीजेन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U40106KL2013PTC034634	G82810987
538	रेलाइबिल इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC032780	G92039817
539	रेलियंट निधि लिमिटेड	U65920KL2016PLC040110	H42299156
540	रेनिल्स ग्लोबल इंपेक्स प्राईवेट लिमिटेड	U51221KL2016PTC040306	G81661985
541	रेवडी कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2015PTC038076	G83948554
542	रिच इंडिया चिटस प्राईवेट लिमिटेड	U65999KL2016PTC045844	H29938487
543	रिडीस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2016PTC047418	G55341580
544	रिपल्स एसोसिएट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U52393KL2014PTC036405	G84584994
545	रोकिंग्स ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	U14102KL2014PTC036156	G79951273
546	रॉकलैंड क्रशर्स प्राईवेट लिमिटेड	U14290KL2013PTC034946	G73813859
547	रोसारा कम्यूनिकेशनस प्राईवेट लिमिटेड	U92132KL2008PTC021931	G43477702
548	रॉयलफाइव ट्रांस & लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	U63090KL2013PTC033041	H19884188
549	रॉयल स्टार ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेवल कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74910KL2010PTC027281	H43278332
550	आर एस जे बीपावर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74200KL2010PTC025421	H18496687
551	आर एस एन & जे प्रोजेक्ट्स एंड इनीशिएटिव्स प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2012PTC032380	G79434940
552	रूबिकोन स्ट्रेटेजिक सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2013PTC033487	G68452259
553	रूबिरुल्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2009PTC024979	G43016252
554	रूबी मेट्रीमोनि प्राईवेट लिमिटेड	U72400KL2012PTC032063	H08624082
555	रूनवायड्रोनपिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC046591	G90152455
556	एस&एसरिहा बिलिटेशन प्राईवेट लिमिटेड	U33110KL2013PTC034965	G91916015
557	एस आर ई रीरोल्स प्राईवेट लिमिटेड	U27105KL1995PTC009320	G72052525
558	एस एस जीसेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	U67120KL1995PTC009473	H14605877
559	सदगमयाकुरीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2013PTC033196	H05806831
560	सहिया ट्रेडिंगकंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U51501KL1984PTC003886	G77598076
561	संशुद्धिकुरीस प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2009PTC025195	G74786906
562	सनातनाकुरीस एंड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL1997PTC011621	H11260817
563	सेंक्टम टेक्नो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2000PTC013796	H23500705
564	संडालियाशूज प्राईवेट लिमिटेड	U19200KL2013PTC033173	G84921832
565	संदिजू प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	U45201KL2008PTC023183	G51707131
566	सानजोससेक्योरिटीज एंड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U67120KL2010PTC027307	G70659636
567	एस ए पी एस एनवायरमेंट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U52100KL2012PTC031523	H41426255
568	सारास टेक सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2014PTC037453	H21862487
569	सारेय्स सॉफ्टवेयर सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2008PTC022580	G62888672
570	साटालेन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2011PTC029865	G44971067

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
571	सतभावना प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U22219KL2010PTC026264	G45891553
572	सेटलाइन मैन पावर कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड	U74910KL2010PTC026546	G48043541
573	सऊदी सहृदया प्रवासी डेवेलोपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70102KL2012PTC031125	H42647099
574	साइन्स फ्लोरा पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड	U22100KL2015PTC039132	H21622337
575	साइनटेक फार्मा एंड हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	U33110KL2009PTC023885	H42953166
576	स्क्रीनरी मीडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74300KL2008PTC022194	H15116668
577	स्कूबाटेकनोलोजी सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2010PTC026562	G43362797
578	सेमान्टिक आईटी सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2000PTC013996	H25884164
579	एसएफ मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	U50100KL2014PTC036319	G85284131
580	शबाफजहा इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	U45309KL2018PTC052732	H14240550
581	शमील कट्टुमुंडा ऑनलाइन सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC047032	H43972520
582	शुजी टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2016PTC046854	G72849078
583	सिको ट्रेडिंगकंपनी प्राईवेट लिमिटेड	U51900KL2014PTC036437	H01761931
584	एस आ ई मंत्राबिज़नस & डेवलपमेंटस (इ) प्राईवेट लिमिटेड	U45202KL2013PTC035748	G71007439
585	सीमेक्स कन्सल्टिंग एंड कांटेक्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74900KL2015PTC038258	H14033633
586	सिल्वरफोम प्राईवेट लिमिटेड	U25199KL1986PTC004609	H44339166
587	सइमन्स अकाउंटिंग एंड टैक्स सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC032790	G80459282
588	सिंगनोर सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74900KL2003PTC016733	G93670313
589	सिक्सरवन रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45201KL2005PTC018956	H34809699
590	सिक्स सिग्माएनर्जि सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2013PTC034319	H34920801
591	स्काइहारवेस्ट इम्पोर्ट & एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	U74900KL2013PTC033420	G90627597
592	स्काईरोस हैबिटाट्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2010PTC027017	G43344332
593	स्लिंगशॉट कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL2014PTC036052	H28031854
594	स्मार्टटेक रीयल्टर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70101KL2008PTC022150	H16324519
595	स्मार्टवेसबी 2 बीकनैक्ट प्राईवेट लिमिटेड	U74995KL2012PTC032621	G94689338
596	स्नोव्हाइटहोम केयर प्राईवेट लिमिटेड	U74930KL2008PTC021765	G85655504
597	सॉफ्ट ह्यूस टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC032139	H12361952
598	सोमा फाइन निधि लिमिटेड	U65999KL2017PLC049728	H28828721
599	साउंड मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	U32300KL2015PTC038693	G83321919
600	स्पारइंफोटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2011PTC029594	G83361386
601	स्पेशियस मीडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2013PTC033989	G95954160
602	स्पेक्ट्रमनर्सेजरिक्रूटमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74910KL2008PTC022940	G78043262
603	स्पीडट्रक्स ट्रांसिस्ट एंड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	U63090KL2010PTC025275	G62822689
604	स्पाइन इन्नोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2011PTC029903	G82573429
605	स्पॉट एनर्जि इंटीग्रेशनस प्राईवेट लिमिटेड	U31200KL2015PTC038077	G89956619



क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
606	स्क्वायर फूट हाउसिंग सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2012PTC031087	G45606936
607	सेंट पीटर्स कुरीस एंड लोन्सपीवीटी एलटीडी	U65992KL1993PTC007541	G43395045
608	स्टैंपटेक मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	U28110KL2012PTC031955	G88136825
609	स्टैंप टेकपार्ट सेंटर फेब्रिकेशन प्राईवेट लिमिटेड	U28990KL2012PTC031996	G88137310
610	स्टारडेल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	U65992KL2015PTC039520	G90657826
611	स्ट्रेटेजिक निर्वाणा इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2015PTC038435	G49802622
612	सुजन्मा हैचरीस प्राईवेट लिमिटेड	U05005KL1983PTC003664	G69696599
613	सुकृतम इनफ्रास्ट्रक्चर डिवलपर्स लिमिटेड	U70200KL2017PLC049488	G92479377
614	सनबीम इंपेक्सवैचर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U51900KL2011PTC027358	G46124442
615	सनरॉयल टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2010PTC027203	G45792538
616	स्वराज मार्केटिंग & कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी(इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2014PTC036236	G86928512
617	स्विसगीयर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL1994PTC008394	H30527618
618	सिंफनी इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	U80903KL2011PTC027910	G41841008
619	टी ए ई सी सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC030326	G89404917
620	टॉकशॉप स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	U73100KL2008PTC022666	G45587276
621	टैंकफुल एड्स प्राईवेट लिमिटेड	U74300KL2015PTC038798	G83641837
622	टारोन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2016PTC046986	G62232129
623	टीमलीड इनवेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2007PTC020378	G64380686
624	टैकटेमर्स टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड (ओपीसी)	U72300KL2016OPC040280	G64163744
625	टैकगो इन्नोवेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2014PTC036808	G58148347
626	टैकमेट प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70102KL2008PTC022149	H17355306
627	टेकरे कम्युनिकेशनस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2014PTC037669	G72928625
628	टेकऊरा लाइटिंग सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U52335KL2015PTC039314	H42895888
629	टेल्कोन मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	U27100KL2012PTC032640	G72380256
630	टेलिएड्स टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2015PTC037842	H39726369
631	टीईएमसी ट्राइन इंजीनियरिंग & मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2017PTC049206	H43597418
632	टेमको इलेक्ट्रिकल & इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज प्राईवेट लिमिटेड	U31909KL2008PTC022882	H31956253
633	टेक्सप्लोक्स टेक्नोलजी प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC050672	H30671952
634	टीएफएस मार्केटिंग एंड फाइनेंसियल सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U67190KL2006PTC020114	G45103975
635	तारासी गेस्टहाउस प्राईवेट लिमिटेड	U55103KL2013PTC034364	G61278891
636	ताजहवारम फार्मस एंड रिजॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U70100KL2010PTC027276	G88334750
637	दओवरसीस ब्रीवरीज प्राईवेट लिमिटेड	U15532KL1998PTC012693	G92346188
638	दपाप्पिनिस्सेरी सॉ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	U02002KL1956PTC001720	G75876706

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
639	तेनूर हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2018PTC053096	H43807775
640	तेनूरलिविंग प्राईवेट लिमिटेड	U45309KL2018PTC053228	H43888049
641	तेनूर रेजिडेंसेस प्राईवेट लिमिटेड	U45309KL2018PTC053093	H43887868
642	तेनूरवैचर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45303KL2018PTC053089	H43888288
643	तिंगलश्री कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2015PTC037879	G73989378
644	श्री सीस मेडिकल एंड सर्जिकल प्राईवेट लिमिटेड	U85110KL2014PTC037002	H39837281
645	त्रिपयार डाटा कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड	U64200KL2016PTC040126	G92407196
646	त्रिशूरग्रामीणा सूपरमार्केटलिमिटेड	U52330KL2010PLC025490	G48949135
647	तुषारा एलाइड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U52100KL2012PTC031364	G73787541
648	टिबरगैस & पावर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U11100KL2015PTC039450	H31322340
649	टीटा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2012PTC031164	G52897709
650	टोर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	U51395KL1985PTC004310	H30128383
651	टोटक्युम सर्टिफिकेशनस प्राईवेट लिमिटेड	U74990KL2013PTC035747	H27264811
652	टाऊनकार्ट ऑनलाइन प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC048550	H43013531
653	ट्राकोल कार्बन प्राईवेट लिमिटेड	U31900KL2017PTC047969	H29346764
654	ट्रांची रिसर्चसेंटर प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2011PTC028122	G95402053
655	ट्रांसेंट बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	U70102KL2011PTC028878	G52192804
656	ट्रान्सक्राइब मेड प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2004PTC017130	G77713527
657	ट्रांसड्यूस ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	U60300KL2017PTC050760	H43588532
658	ट्रांसस्टोमेटैकनोलैब्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC049867	H42390211
659	ट्राइमेड (इंडिया) मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51397KL2005PTC018841	H17129255
660	ट्रिनम सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2015PTC038310	G59631838
661	ट्रियोस ब्लॉकरबर्स प्राईवेट लिमिटेड	U25191KL2002PTC015594	G89251151
662	ट्राईस्टार लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड	U63090KL2004PTC017159	G86111713
663	त्रित्वम निधि लिमिटेड	U65999KL2017PLC048614	G93439917
664	ट्राइयुन ऑर्गेनिक चिकेन प्राईवेट लिमिटेड	U01222KL2011PTC028501	G86555570
665	ट्रिवांड्रमरबर वर्क्स लिमिटेड	U25191KL1963SGC002034	G42265413
666	टूकोट वंडरकलर्स ट्रेड्स एंड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U51100KL2013PTC033757	G81513186
667	टर्टल फाइनेंसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U67120KL2011PTC028099	G44085397
668	टजलिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2015PTC037904	G46609376
669	यू एस एज्युकेशन सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U80903KL2012PTC031180	G91591461
670	यूबिका मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	U52100KL2012PTC030838	G59286658
671	उलूफ ऑटोलुब्रिकेंट्स ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2015PTC037932	G69036549
672	यूनि बी इंटीग्रेटेड सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2015PTC037927	H25485970
673	यूनिकस स्पाइसेस & नैचुरल एक्स्ट्राक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U15400KL2015PTC038157	G57157000

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
674	यूनाइट ऑर्गेनिक वैली प्रोडक्ट्स एंड ट्रेवल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U63090KL2015PTC038342	G70477054
675	यूनिटी पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74950KL1999PTC012958	G74589904
676	यूनिटी एक्सपर्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2012PTC032909	H33231747
677	अपस्किल आरटैक एड्यु प्राइवेट लिमिटेड	U80904KL2015PTC038116	G79578944
678	यूवरबेस्ट ऑटोमेशन एंड सेक्युरिटी सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड	U74920KL2009PTC024731	G74455411
679	उषस फायर टैक प्राइवेट लिमिटेड	U75230KL2012PTC032381	G91757013
680	वी सी एच इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45203KL2011PTC028762	G85261188
681	वीस्टेप पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड	U25190KL2013PTC035486	H20914677
682	वीवीआईपी ज्वेल्स & जेम्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U52393KL2013PTC033325	G94068988
683	वा वफा गार्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC046232	G60379856
684	वासिस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC049137	H04652715
685	वैकम कुरीस प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL1990PTC005647	G72646680
686	वाक्यार चिट्टी फंड प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2013PTC035446	G92978394
687	वेलेंटीनो सैनितरीस प्राइवेट लिमिटेड	U51909KL2011PTC028272	G90268798
688	वल्लुवनाड एगो प्राइवेट लिमिटेड	U01403KL2015PTC038783	G93402949
689	वल्लुवनाड फूड्स लिमिटेड	U15499KL2003PLC015874	H20533717
690	वैल्यू 2 रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U74140KL2013PTC035260	G80141815
691	वानरब प्राइवेट लिमिटेड	U24131KL1996PTC010192	G43521947
692	वरमाला प्रॉपर्टीज & डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200KL2016PTC040053	G83533703
693	वेलिस्विमिंग अकैडमी प्राइवेट लिमिटेड	U74900KL2013PTC034441	G74010299
694	वेलियिल रिजॉर्ट्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	U55101KL2011PTC028200	G43635259
695	वेल्लाप्पल्ली ब्रदर्स कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	U45201KL1973PTC002502	G41163544
696	वेंगिलास्सेरी कुरीस प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2009PTC024816	G77046076
697	वेनीसमार्टई कॉमर्स सर्विसेस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	U52100KL2012PTC032198	G46771093
698	वेनजाई एक्सिम एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51900KL2010PTC026388	G44218733
699	वेष्टत कुरीस प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2007PTC020623	G68889427
700	विगमो सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2013PTC034805	G69920858
701	विग्नेश्वर फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51396KL2012PTC030881	G43422682
702	वाइनटाइन हेल्थकेयर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	U51909KL2017OPC048959	G78204898
703	विर्जिनचिटस प्राइवेट लिमिटेड	U65992KL2010PTC026248	G45787462
704	विशाल एक्सपीरिया हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड	U63040KL2011PTC029700	G89142764
705	विस्तार बाजार हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड	U51909KL2015PTC039214	H19020270
706	वोड्ड सॉफ्टवेयर सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड	U72200KL2015PTC038985	G81642282
707	वीएसडीलैब्स प्राइवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC046015	H21609946

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
708	वैडूरियमफैशनज्वेलर्स (चेम्माड) प्राईवेट लिमिटेड	U36911KL2006PTC020119	G88955372
709	वी ज़ेड एममार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74900KL2011PTC028118	G48010094
710	वौल्ट मैक अपारल प्राईवेट लिमिटेड	U52322KL2011PTC028757	G86467859
711	वौमटीम प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC031485	G72196389
712	वयनाड पाप्पीस एगो प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड	U51220KL2015PTC037916	G55850333
713	वी-5 इवेंटस प्राईवेट लिमिटेड	U92490KL2012PTC030695	H11861457
714	वेबहाबेट सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2015PTC039353	H04196390
715	वेबटयूर टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2011PTC029997	G76404425
716	वीकेयर लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U63010KL2010PTC026061	G43956036
717	वेको फूडस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U15540KL2013PTC034386	H01729144
718	वेलडोट फाइनेंसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U65910KL1996PTC009870	G71072342
719	वेरिन्नोव कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2013PTC033337	G71352728
720	वेरलिओ इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74210KL2016PTC039829	G70084421
721	वेस्टबोर्न एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL2012PTC031627	H41703315
722	वेस्टर्नघाट्स नैचुरल एक्स्ट्राक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U15400KL2013PTC033983	G95401717
723	डबल्यूआई 13 आईटी सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2015PTC038030	G83261651
724	विफा ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U51909KL2015PTC039236	G90337270
725	विंगमैन कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC048503	G57238230
726	विनट्रस्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45201KL2008PTC021745	H34078899
727	विनजेल होटल्स एंड हॉस्पिटालिटीस प्राईवेट लिमिटेड	U55101KL2009PTC024901	G43776152
728	वायरफ्रेम सॉफ्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2013PTC035005	G88847439
729	विस्डम प्लस एकेडमिक मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड	U80301KL2010PTC026981	G89837637
730	वाइस मेनबुक्स पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड	U22122KL2003PTC016070	G92901974
731	डबल्यू एम एच प्रिवेंटीव हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	U85100KL2010PTC026267	G92740901
732	वुडवर्थ फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड	U36101KL2005PTC018686	H29913993
733	वर्थएक्ट एंटरप्राइज़ प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC048896	H32643827
734	वयना इफ्लेवर्स इंडिया लिमिटेड	U01120KL2013PLC035245	H17421876
735	जिनोम बिज़नस सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U72900KL2014PTC036476	G91203992
736	याक्स टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड	U64201KL2008PTC022178	G88420823
737	यालेमा पेट्रो प्राईवेट लिमिटेड	U51102KL2014PTC036345	G88432869
738	येसमार ग्लोबल सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2016PTC047310	G72931454
739	यॉर्क एलिवेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	U29150KL2012PTC031839	G72314727
740	यूको पावर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U40102KL2015PTC038840	H43316249
741	युवर्स ग्लोबल गोल्ड अरकेड प्राईवेट लिमिटेड	U36911KL2012PTC032706	G86958436
742	युला सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	U72200KL2013PTC035789	G75303594

क्रमांक	कंपनी का नाम	सी आई एन	एस आर एन
743	जाफिन इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड	U45200KL2016PTC045929	G69955318
744	जेयतून मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC032727	H20590659
745	जेन जीनियस इन्नोवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	U74140KL2012PTC032744	G57018707
746	जेफिर ट्यूटोरियल्स प्राईवेट लिमिटेड	U80903KL2013PTC033669	G94848637
747	जिनेटा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74999KL2017PTC050639	G94929650
748	स्लाटन सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड	U52590KL2016PTC046763	G86422292
749	जोलब्रीज टेक्नोलॉजीज & रिन्यूवबिल एनर्जी सोल्युशंस प्राईवेट	U72200KL2012PTC032340	G52719358

इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत उपर्युक्त कंपनियों से कंपनी रजिस्ट्रार को ऊपर उल्लिखित कंपनी(यों) से कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम (नामों) को हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि वे उनकी कंपनी(यों) के निगमन से एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी(नियों) की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते हैं और अतः कंपनी रजिस्टर से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

(2) तदनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्टर से ऊपर उल्लिखित कंपनियों के नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।

(3) यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

जी. सी. यादव  
कंपनी रजिस्ट्रार  
केरल

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**(SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY)**

Hyderabad-500052, the 21st February 2019

No. 15011/12/2018/Estt/A2—In pursuance of MHA letter No. I-21015/32/2018-IPS.III dated 19.12.2018, Shri C. Vamsi Krishna, IPs (KTK:2009) is appointed as Assistant Director (SP level) in the SVP National Police Academy, Hyderabad in level-12 in the pay matrix on deputation basis for a period of four years with effect from 31.01.2019 (FN) or until further orders, whichever earlier, on usual terms and conditions of deputation. The officer will be entitled to the pay and allowances of the said post, as per GOI instructions issued from time to time.

D.R. DOLEY BARMAN  
Director

**DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE**

New Delhi, the 8th March 2019

No. O.II.7848/2019-Pers.DA-4—Consequent on acceptance of his notice dated 01/01/2019 for voluntary retirement from Government service Shri Rajan Agarwal, Dy Comdt (IRLA -7848) of 81 Bn, Jashpur, (Chhattisgarh) relinquished the charge of his post in the afternoon of 28/02/2019. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from, the same date i.e. 28/02/2019 (AN).

B. S. GUJRAL  
DIGP (Pers)

**DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE**

New Delhi, the 28th February 2019

No. E. 38013/01/NOTI./GOs/2019/PERS.I/136—The President is pleased to appoint the following Assistant Commandants (Local Rank) on regular promotion to the rank of Assistant Commandants/Exe in the pay Matrix Level-10 Rs. 56,100—1,77,500/- in CISF with effect from the date mentioned against each:—

Sl. No.	Name of Officers (S/Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Assistant Commandants on regular basis
1.	Ashwini Kumar	12 <sup>th</sup> Res. Bn. Behror	02.02.2019 (FN)
2.	Izhar Ahmad	ISP Burnpur	23.01.2019 (FN)
3.	Ranjib Kumar Mishra	GRSEL Kolkata	22.01.2019 (AN)
4.	Kanzariya Devendra	Electronic City Bangalore	22.01.2019 (AN)

The promotion of the above officers to the post of Assistant Commandant/Exe is subject to the judgement dated 26.09.2018 of the Hon'ble Supreme Court in SLP (C) No. 30621/2011(.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**  
**(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)**

FORM No. STK – 6

**PUBLIC NOTICE**

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013  
in respect of

Pune-411044, the 8th March 2019

No. ROCP/CP/ STK6/32/2019—

Sr. No.	CIN	Company Name
1	U01122PN2010PTC137465	MAHENDRA AGRO TOURISM AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
2	U17121PN2011PTC139171	FABTECH INTEGRATED TEXOPARK PRIVATE LIMITED

Sr. No.	CIN	Company Name
3	U27300PN2007PTC130782	SHREERAM ALFORCA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4	U29222PN2013PTC148597	VERSATILE MICROTECH PRIVATE LIMITED
5	U40106PN2013PTC147159	DYANPRASAD SOLAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
6	U40108PN2008PTC131308	SHASHWAT OORJA PRIVATE LIMITED
7	U40300PN2015PTC154386	DECCAN SUSTAINABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
8	U45203PN2017PTC172181	PC TELECOM PRIVATE LIMITED
9	U45500PN2017PTC170632	SMGV CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
10	U51505MH1994PTC081816	AAKAY IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
11	U51909PN2015OPC157627	HINDBHU IMPEX PRIVATE LIMITED (OPC)
12	U52399PN2014PTC152449	LANDWARD TRADELINKS PRIVATE LIMITED
13	U52399PN2016PTC158213	AION BESPOKE PRIVATE LIMITED
14	U65990PN2009PTC134494	SPANDAN SECURITIES PRIVATE LIMITED
15	U70109PN2018PTC176130	LIVITY INDIA PRIVATE LIMITED
16	U72200PN2015PTC155673	ZEURISTECH ENTERPRISE NETWORKS PRIVATE LIMITED
17	U72200PN2016PTC165456	ENTERTAINCONNECT PRIVATE LIMITED
18	U72900PN2014PTC153072	GIJA SERVICES & PRODUCTS PRIVATE LIMITED
19	U72900PN2016PTC166333	SILVER CLOUD CORPORATION INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
20	U72900PN2016PTC166498	MOBILIZE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
21	U74899PN2006PTC138016	ALLIANCES FOR US INDIA BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
22	U74900PN2010PTC137539	GO HOLIDAYS LEISURES PRIVATE LIMITED
23	U74900PN2014PTC152179	EXPANDUS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
24	U74900PN2014PTC153246	TMED HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
25	U74900PN2015PTC155206	VASTU AGRO & DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
26	U74999PN2012PTC142473	SUNBEAM SOLAR POWER INDIA PRIVATE LIMITED
27	U74999PN2016OPC165770	PLANTOCHEM PRIVATE LIMITED (OPC)
28	U74999PN2016PTC164278	TRENDUSTRY CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
29	U74999PN2016PTC165576	CRT EDUCATIONAL CONCEPT PRIVATE LIMITED
30	U74999PN2016PTC167510	CREATRON LABS PRIVATE LIMITED
31	U74999PN2017PTC172842	AGRIL BUSINESS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
32	U92419PN2010PTC136040	WESTERN GHAT AGRO & ADVENTURES TOURISM PRIVATE LIMITED

Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company (ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies.

(3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

P. S. KHADE  
Asst. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of LLP Act, 2008 and of the following LLP's

Pune-411044, the 12th March 2019

List of 42 LLPs struck off from the register of Registrar of Companies, Pune under Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009.

No. ROC/P/Rule 37(3)/STA/2019/3874—

Sr. No.	LLPIN	Name of LLP
1.	AAE-0796	ROYALSWAN OVERSEAS LLP
2.	AAI-5841	PARAKH HORTICULTURE LLP
3.	AAF-3399	PNR AVIATION TRAINING INSTITUTE LLP
4.	AAE-6623	SYNECTIX ENGINEERS LLP
5.	AAE-0273	GIRI LOGISTICS AND ROADLINES LLP
6.	AAE-7667	CRAB KEY SYSTEM INTEGRATORS LLP
7.	AAH-7213	SHREE SWAMI SAMARTH LANDMARKS LLP
8.	AAI-9160	RONE CORPORATE SOLUTIONS LLP
9.	AAJ-2991	GOURMET CHEF'S LLP
10.	AAH-5287	SONAI PRUTHVI ORGANIC LLP
11.	AAJ-0866	TIDY CLEANERZ HOUSEKEEPING & DEEP CLEANING LLP
12.	AAI-9973	SUNSHINE MULTISPECIALITY HOSPITAL LLP
13.	AAD-0605	TELESOFTCARE LLP
14.	AAF-5898	JUSTSEARCH PROPERTY LLP
15.	AAG-0874	REFORM LIVING INTERIORS LLP
16.	AAE-1959	JD REFINERY LLP
17.	AAI-6365	HEUU GOLD LLP
18.	AAH-9302	PREMDEEP EDUCATIONAL INSTITUTIONS LLP
19.	AAC-3093	ARCHER HR SOLUTIONS LLP
20.	AAI-5840	VALWEAVE TECHSOFT LLP
21.	AAK-0978	ROBOPRAN TECHSOFT LLP
22.	AAK-5719	GS LEGAL LLP
23.	AAK-7304	REDFOUNTAIN TRAINING INSTITUTE LLP
24.	AAH-2504	SUMATISHRI INFRA PROJECTS LLP
25.	AAJ-8688	PHB PROPERTY LLP
26.	AAK-0101	IGNITE SKILL LABS LLP
27.	AAH-4693	BEING FRIENDS PRODUCTIONS LLP
28.	AAF-6531	VISION TECH ENTERPRISES LLP
29.	AAG-3212	WINVITY SOLUTIONS LLP
30.	AAG-7483	MKA & ASSOCIATES COMPANY SECRETARIES LLP
31.	AAF-4590	SANKALP INNOVATIVE SOLUTIONS LLP
32.	AAC-0688	MOTOMONKS TOURS LLP
33.	AAH-5802	FRAGRANCE VENTURE LLP
34.	AAH-1327	SANGROON RESORT AND SPA LLP
35.	AAF-9012	PARKWEL PARKING SERVICES LLP
36.	AAC-2946	SAI SERVICE SPARES LLP
37.	AAE-1997	POWER TECH IT SOLUTIONS LLP
38.	AAG-5946	IKONIC HERITAGE LLP
39.	AAC-7578	DEVSATWORK TECH SOLUTIONS LLP
40.	AAI-4381	EIFFEL INTERNATIONAL LLP
41.	AAJ-8012	SUI CHALK & BUTTON GARMENT INDUSTRIES LLP
42.	AAI-5819	EBEX VENTURES LLP

P.S. KHADE  
Asst. Registrar of Companies  
Maharashtra



## FORM No. STK - 6

## PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013 in respect of

Tamil Nadu-641014, the 4th March 2019

No. STK6 ROCCBE 2019—

Sr. No.	CIN	Company Name
1	U01100TZ2008PTC014417	SRI VARADHA ANJANEYAA FARMS PRIVATE LIMITED
2	U01403TZ2014PTC020155	PS NATURO PRODUCTS SERVICES PRIVATE LIMITED
3	U02511TZ1992PTC003754	BLUEMOUNTAIN TREADS PRIVATE LIMITED
4	U17111TZ2010PTC015836	TRINITY COTSPIN PRIVATE LIMITED
5	U17299TZ2017PTC028699	SIEGER GARMENTS PRIVATE LIMITED
6	U17309TZ2017PTC028777	HWC VENTURES PRIVATE LIMITED
7	U18100TZ2016PTC028174	BENDITO LACE PRIVATE LIMITED
8	U22200TZ2012PTC017744	MARKS PRINT AND MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
9	U24299TZ2015PTC022084	MAHIL CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
10	U27109TZ1979PTC000839	SAILESWARAN STEELS PRIVATE LIMITED
11	U27205TZ1991PTC003343	KIRTILAL KALIDAS JEWELLERY MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
12	U29199TZ1999PTC008921	SBK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
13	U29220TZ2008PTC014585	ETA WELD TECH INDIA PRIVATE LIMITED
14	U29300TZ2017PTC028375	AVVNA EQUIPMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
15	U31902TZ2012PTC017926	ECOLED ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
16	U32109TZ2000PTC009388	BRIGHT ELECTRO CONTROL EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
17	U36900TZ2014PTC020823	VAGSYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
18	U36919TZ2014PTC020722	YOGI CAMERON WELLNESS PRIVATE LIMITED
19	U40108TZ2012PTC018438	COIMBATORE SOLAR ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
20	U45201TZ2015PTC021361	SKYWALK PROMOTERS PRIVATE LIMITED
21	U50200TZ2013PTC020039	SUJATHA AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
22	U51103TZ2011PTC017412	SITEXCITE TRADERS INDIA PRIVATE LIMITED
23	U51393TZ2008PTC014233	SPAN OFFICE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
24	U51909TZ2016PTC027750	SSS STEELS AND ALLOYS PRIVATE LIMITED
25	U51909TZ2016PTC027865	EIPORT COMMERCE PRIVATE LIMITED
26	U52100TZ2015PTC021364	MACALLEN SHOPPING INDIA PRIVATE LIMITED
27	U63040TZ2014PTC020784	WORLDSTRIDE EDUVENTURES AND TOURS PRIVATE LIMITED
28	U63040TZ2016PTC027795	STAYHAPPI PRIVATE LIMITED
29	U65991TZ1994PLC005427	ANANTHA KARPAGA VINAYAGAR BENEFIT FUND LIMITED
30	U65992TZ2003PTC010768	MANOARUN CHITS KOVAI PRIVATE LIMITED
31	U65992TZ2014PTC020315	UDUMALAI SREE SUHASINI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
32	U72200TZ2000PTC012209	ENTECHSOLV SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
33	U72200TZ2015PTC021624	GAMENTEC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
34	U72900TZ2016OPC027595	VIRTUSKILL TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (OPC)

Sr. No.	CIN	Company Name
35	U72900TZ2016PTC027542	SKYBEAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
36	U72900TZ2016PTC027741	GRADIAN SOFTWARES PRIVATE LIMITED
37	U74120TZ2015PTC021711	ENTERPRISEENTITY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
38	U74120TZ2016PTC022354	CREATIVELY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
39	U74999TZ2016PTC028059	GRAND HOLIDAY DESTINATION & RESORTS PRIVATE LIMITED
40	U74999TZ2017PTC028959	HAP MART PRIVATE LIMITED
41	U74999TZ2018PTC030710	ANBAE HSE PRIVATE LIMITED
42	U74999TZ2018PTC030776	AITAC AVIATION PRIVATE LIMITED
43	U92190TZ2015PTC022099	GOODEARTH WELLNESS INDIA PRIVATE LIMITED
44	U93090TZ2014PTC020864	SPOUSEUP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

(1) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company (ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies.

(3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

K. LATHA PARIMALA VADANA, ICLS  
Registrar of Companies,  
Tamil Nadu

FORM No. STK-6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-Section(2) and sub-Section (4) of Section 248 of the Companies Act, 2013 and Rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of Companies under Section 248 (2) of the Companies Act, 2013  
in respect of

Cochin-682 021, the 28th February 2019

No. 621—

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
1	1PEBBLE INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC030458	G95565453
2	A AND N INFOMART PRIVATE LIMITED	U72200KL2006PTC020026	G62080247
3	A S ENERGY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72900KL2013PTC035237	G90976853
4	A.V. TOURS INDIA PRIVATE LIMITED	U63040KL2010PTC025720	G93293918
5	A4M TRADING PRIVATE LIMITED	U51900KL2015PTC039607	G90830233
6	AADITHYA DAIRY FARM (PALAKKAD) PRIVATE LIMITED	U01200KL2013PTC034801	G93899656
7	AADITHYADEV TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U35998KL2016PTC046442	H04948824
8	AAKAAR DIGITAL MEDIA AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2010PTC026204	G48199624
9	AALVO CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC030599	G94543097

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
10	AASHRITHA PROJECTS AND VENTURES PRIVATE LIMITED	U45309KL2016PTC047165	H41386665
11	ABDUL RAZAK CHIT FUNDS AND AGENCIES PRIVATE LIMITED	U65992KL1997PTC011433	H43057744
12	ACD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC050364	H34597328
13	ACHARYA HEALTH CENTRE AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMIT	U85100KL2009PTC025268	H06191894
14	ACTTECH GEO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC032728	G52671716
15	A-CUBE PROPERTY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140KL2011PTC028027	G90123142
16	ADDICTIVE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2013PTC035636	G59594184
17	ADONAI TRADE CENTRE PRIVATE LIMITED	U51909KL2012PTC031744	G57045478
18	ADVANCED AUTO FUEL INDIA PRIVATE LIMITED	U51410KL2005PTC018338	G56275878
19	AECOR SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED	U63090KL2010PTC026824	G84772342
20	AGNA TRADE LINKS PRIVATE LIMITED	U52390KL2012PTC031743	G76171032
21	AGRO INDUS SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120KL2006PTC019314	G52833100
22	AIRGRANDEUR AVIATION PRIVATE LIMITED	U62200KL2015PTC039512	H05752480
23	AJA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC030839	G90034554
24	AJFAN HOTELS AND RESORTS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U55101KL2006PTC019515	G91525105
25	AJOYZ INFO SOLUTION (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72900KL2010PTC026010	G46043600
26	AJT DEVELOPERS & CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U70100KL2015PTC038833	H42315598
27	AL AMAL HAJJ UMRA SERVICE PRIVATE LIMITED	U63040KL2012PTC030310	G88782990
28	ALAPPUZHA NATURAL FIBRE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	U17119KL2005PTC018518	G42003269
29	ALATHUR KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2000PTC013810	G74064387
30	ALERTA SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC050778	H36902609
31	ALFARAH FORTUNE HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED	U93090KL2017PTC049468	H41701814
32	ALL SEASONS EXPEDITIONS PRIVATE LIMITED	U63040KL2013PTC035475	G84421585
33	ALTERMEDIA PRINTING AND PUBLISHING COMPANY PRIVATE LIMITED	U22100KL2008PTC022715	G45113081
34	ALUKKAL HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101KL2010PTC026673	G72388085
35	ALVIN DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED	U15200KL2010PTC026702	G81831232
36	ALVITA KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2010PTC026753	G81182388
37	ALWIN FOAMS PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC040288	G48155972
38	AMAARIZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2011PTC029626	G91330852
39	AMAX TRADING PRIVATE LIMITED	U52100KL2015PTC038849	G96189618
40	AMAZING JAUNTS & PACKAGES PRIVATE LIMITED	U63040KL2013PTC034646	G90542895
41	AMETRIA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U80301KL2018PTC052509	H31004922
42	AMICIS BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2011PTC029392	G47282397
43	AMMA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U92130KL2012PTC030383	G43084763
44	AMPHISTORE PRIVATE LIMITED	U52392KL2012PTC031833	H44183440
45	ANALYTY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900KL2015PTC039007	H32029803
46	ANAMALLAIS TIMBER TRUST PVT LTD	U02002KL1931PTC000016	G75907295
47	ANAVES TRADING PRIVATE LIMITED	U52520KL2016PTC046061	H23181167
48	ANRO AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED	U50100KL2009PTC024359	G56502933
49	ANRO RESORTS AND TOURISM PRIVATE LIMITED	U55101KL2009PTC024362	G56507270
50	ANTALIA MEDICARE PRIVATE LIMITED	U85310KL2016PTC047176	G88819222
51	ANTHILL HR SERVICES PRIVATE LIMITED	U74910KL2008PTC023543	G90383480

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
52	ANUBHUTI EXPERIENCE PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC047537	H31263346
53	APPK DATA ANALYTICS (OPC) PRIVATE LIMITED	U74999KL2017OPC049239	H33137019
54	APTECH FERRO SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72200KL1996PTC009889	G93143766
55	ARIA SPICES PRIVATE LIMITED	U15499KL2000PTC014278	G44574192
56	ARION EDUCARE LIMITED	U80300KL2012PLC030769	G84630581
57	ARRANGA ALLOYS PRIVATE LIMITED	U27106KL1995PTC009319	G72049497
58	ASSURETECH VENTURES PRIVATE LIMITED	U70101KL2008PTC021998	H16248874
59	ASTAR AUTOMATION PRIVATE LIMITED	U45309KL1999PTC012898	G44924512
60	ASTER FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120KL2007PTC020573	G76027861
61	ASTROLITE MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED	U31500KL2014PTC037506	G51793966
62	ASTRTA ENTERPRISE PRIVATE LIMITED	U74900KL2013PTC033144	H11802600
63	ATMAMITHRAM MICRO FINANCE PRIVATE LIMITED	U65910KL2015PTC038978	G46286324
64	ATTUNE FINISHING SCHOOL PRIVATE LIMITED	U80302KL2009PTC025199	G87128617
65	AUDENTO MOTORS PRIVATE LIMITED	U50100KL2011PTC028359	G94862935
66	AUM HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101KL2013PTC035249	H21808183
67	AURAGRAM GOLD AND PALLADIUM PRIVATE LIMITED	U74994KL2014PTC037139	G95596532
68	AURORA FARMS AND PLANTATIONS PRIVATE LIMITED	U01110KL2017PTC048340	H44750073
69	AVANTE GARDE SHIPPING PRIVATE LIMITED	U35100KL2013PTC034087	G49490428
70	AVATAR VALLEY HEALTH RESORTS PRIVATE LIMITED	U92190KL2013PTC033674	G92340058
71	AXELPAY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U52399KL2014PTC036681	G79747218
72	AYURDARSAN HOSPITALS PRIVATE LIMITED	U85110KL2007PTC021200	G92553635
73	AZALIA REALTORS PRIVATE LIMITED	U45200KL2016PTC047016	H43344555
74	AZPIRE IDEAS AND INITIATIVES PRIVATE LIMITED	U74900KL2011PTC028622	G93330892
75	BANDB CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140KL2013PTC034572	G92341205
76	BASILICA KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL1999PTC012979	G92393453
77	BAVAS BUSINESS PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC048759	H20794574
78	BAYPORE MARITIME PRIVATE LIMITED	U35100KL2014PTC037027	H29597721
79	BEAUMONDE STEEL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC046792	H03803962
80	BEAVERS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100KL2011PTC029405	G87023610
81	BELL MADE PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45200KL2013PTC033974	G82010067
82	BELMONT CARBON AND ADSORBENTS PRIVATE LIMITED	U36900KL2007PTC021283	G46929899
83	B-GHUD ACADEMY PRIVATE LIMITED	U80903KL2014PTC035968	G46621603
84	BHAS COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U52201KL2004PTC017683	G84908714
85	BIG BEATS LIMITED	U92100KL2014PLC036270	G91318436
86	BIKAURA POWER SOLUTION PRIVATE LIMITED	U31500KL2013PTC033737	G57205270
87	BIKTOP SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900KL2016PTC045569	H02557429
88	BINFAR BUILDERS INDIA PRIVATE LIMITED	U45200KL2009PTC023945	G82083395
89	BION SCIENTIFIC INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED	U52100KL2009PTC024028	G43728781
90	BIZLINE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2015PTC037947	G76459700
91	BJ INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES PRIVATE LIMITED	U45208KL2012PTC030800	G91336701
92	BLISS ABODE HOTELS PRIVATE LIMITED	U55101KL2008PTC023579	G87891131
93	BLUE SKY BROKING PRIVATE LIMITED	U67120KL2008PTC023310	G90885948
94	BLUEWOOD ESTATES PRIVATE LIMITED	U70100KL2014PTC036949	G74170929
95	BRICK BOND BUILDERS PVT LTD	U45201KL1994PTC008059	G68349430
96	BRIGHT INDIA HR MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC030788	G45602604
97	BRIGHTLINE BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45309KL2017PTC047795	G78686995
98	BRUNIER BUSINESS INDIA PRIVATE LIMITED	U74200KL2012PTC031864	H22369235

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
99	BUTTERFLY EVENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74900KL2010PTC026275	G60768587
100	BUTTERFLY TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2008PTC021971	H41781006
101	BUYWIN DISTRIBUTION AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U51901KL2002PTC015756	G80634694
102	CACI COSMECEUTICALS PRIVATE LIMITED	U51391KL2011PTC029896	G52717436
103	CADMIUM SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2013PTC033145	G69953172
104	CALICUT REAL ESTATES PRIVATE LIMITED	U70102KL2005PTC018774	G49682057
105	CAREER CENTER EDUCATIONAL AND RESEARCH SERVICES PRIVATE LIMITED	U80220KL2012PTC032433	H44070480
106	CARMEL VILLAS AND APARTMENTS PRIVATE LIMITED	U45200KL2012PTC032540	G56230816
107	CASTLE PAPER PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U21017KL2010PTC026420	G85000719
108	CASTUS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2013PTC034559	H32802266
109	CATALYSYS MARKETING PRIVATE LIMITED	U74140KL2013PTC034890	H39897293
110	CENTRICUS CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC030776	G52701307
111	CENTURYAROMA CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL2015PTC038550	G92397470
112	CEREBTEC ACADEMY PRIVATE LIMITED	U72900KL2011PTC028074	G47569777
113	CHAKOLAS INTERTRADE PVT LTD	U51909KL1947PTC000262	G44531184
114	CHAND CREATION COMPANY PRIVATE LIMITED	U92120KL2012PTC031784	G59229070
115	CHANGARAM REALTORS PRIVATE LIMITED	U70100KL2013PTC035011	G85435006
116	CHEERUP HOLIDAYS PRIVATE LIMITED	U55101KL2011PTC029496	G44246205
117	CHELAPPURATH BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2009PTC023685	G45624848
118	CHEMIE INDUSTRIAL SUPPLY PRIVATE LIMITED	U24299KL2014PTC036475	G78874260
119	CHEMPAZHA DEVELOPERS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U45200KL2009PTC025003	H21341839
120	CHEMPRO MACHINES & SPARES PRIVATE LIMITED	U29308KL2013PTC035264	H35234525
121	CHERUPUSHPAM NIDHI LIMITED	U65999KL2015PLC039187	H41887704
122	CHESLAS PLASTIC AND METAL INDUSTRIES PVT LTD	U25209KL1982PTC003504	G68783828
123	CHIKITZO HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U85310KL2017PTC048270	G88138045
124	CHILLIES CATERING PRIVATE LIMITED	U55101KL2009PTC024686	H17815861
125	CHIPAGE INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2015PTC038198	G92961796
126	CHITTISSERY CHITS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U65992KL2010PTC025925	H31791775
127	CHOWANNOOR KURIES AND FINANCE PVT LTD	U65992KL1995PTC008555	G68674167
128	CICA INFRA PRIVATE LIMITED	U70100KL2013PTC035727	G83392803
129	CITY TECH SECURITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U52335KL2011PTC028028	G49074735
130	CIVIL LANE KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2002PTC015306	G79869582
131	CJAJ REALTORS PRIVATE LIMITED	U70100KL2015PTC039174	G65082133
132	CJAJ WELLNESS TREATMENT AND TOURS PRIVATE LIMITED	U63000KL2015PTC039173	G65075863
133	CJFUNWORLD PRIVATE LIMITED	U72900KL2012PTC031977	G75351700
134	CJM LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63030KL2016PTC046039	H25928912
135	CLEAN CITY COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74140KL1997PTC011752	G85578037
136	CLINKARE RESEARCH SERVICES PRIVATE LIMITED	U73100KL2012PTC032347	G90559600
137	CLOUDUNBOUND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900KL2015PTC037778	H35545250
138	COCHIN ASSAY COMPANY PRIVATE LIMITED	U93090KL2001PTC014442	H17188301
139	COCHIN HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U52310KL2007PTC021183	G85372266
140	COCHIN TRADING CORPN LTD	U51909KL1943PLC000225	G55027015

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
141	COCOHOL TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED	U63040KL2005PTC017918	G57155970
142	COMICLAN PUBLISHERS PRIVATE LIMITED	U22100KL2013PTC034442	G78102571
143	COMPRENSA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2011PTC028005	G91197095
144	CONCORD KURIES AND LOANS PVT LTD	U65992KL1990PTC005622	G92223759
145	CONSOLOGIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900KL2013PTC033474	G94346004
146	CREATORS' DEN PRIVATE LIMITED	U92100KL2013PTC034146	G75892372
147	CROSSOVER EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140KL2013PTC033744	G94245206
148	CRR AND PNG FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190KL2011PTC029574	G54253943
149	CRYSTALARDEN HEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999KL2015PTC038340	G93035764
150	CUBITAR3D SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC048460	H26486977
151	CUSTOMERS NIDHI LIMITED	U65900KL2017PLC048538	G93818359
152	CVM INVESTMENTS AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC046265	G76060904
153	CYNOSURE KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2006PTC019184	H34289884
154	DANS HOUSE PLANS PRIVATE LIMITED	U72900KL2006PTC019685	H02151926
155	DAR OPTICS GROUP PRIVATE LIMITED	U51507KL2011PTC029288	H05093265
156	DATARAFTS PRIVATE LIMITED	U72900KL2016PTC046946	H14437537
157	DATORA ITA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC031337	G95723367
158	DEEPAK GLASS WORKS PRIVATE LIMITED	U26101KL2005PTC017964	H12837076
159	DEIN MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140KL2014PTC037646	H25997826
160	DEMDEWS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC031466	H44561876
161	DEVAPRABHA KURIES PVT LTD	U65992KL1981PTC003416	G92283050
162	DEVIS BUSINESS ESTATE PRIVATE LIMITED	U70100KL2011PTC027994	G55053235
163	DEVWORKZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2014PTC037502	G57174732
164	DEXTROWAY SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2014PTC037338	G80911571
165	DHANAREKHA KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL1997PTC011430	G46829545
166	DHANASREE CHITTIES AND LOANS PVT LTD	U65992KL1990PTC005587	G88093075
167	DHANATHEERAM CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL2009PTC024785	G85968964
168	DHANAVARDHINI CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL2011PTC030082	G47321195
169	DHANAVIJAYA NIDHI LIMITED	U65900KL2015PLC039056	H22010714
170	DIGILA DEVICES INDIA PRIVATE LIMITED	U51505KL2000PTC013777	G82170267
171	DIRECT EDGE CONSULTANCY AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140KL2004PTC016908	G43128727
172	DREAM JOURNEY'S TRAVEL HUB PRIVATE LIMITED	U63040KL2013PTC034602	G59667840
173	DRIZZLE JEWELLERS PRIVATE LIMITED	U51398KL2009PTC024838	G59886994
174	DYUTHI SOLAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U40106KL2016PTC046169	H21649207
175	EASY BOOKING SOFT PRIVATE LIMITED	U63040KL2014PTC036351	G79916383
176	EFFERMINT INDIA LIMITED	U24246KL1994PLC008321	G44382273
177	ELECTRONIFY TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900KL2011PTC028041	G88841747
178	EMEL SOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2016PTC040141	H21517214
179	EMERGING SOFTLABS PRIVATE LIMITED	U72200KL2013PTC033447	G59767053
180	EMPIRE EXTRACTS PRIVATE LIMITED	U36100KL2013PTC035757	G88360011
181	EMPIRESTAR CONVENTION CENTRE PRIVATE LIMITED	U74120KL2015PTC039358	G75590588
182	ENABLER TECHMARKETING ADVISOR PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC031032	H42437905
183	ENDURA BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2012PTC030491	G44960086
184	ENIGMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2008PTC022323	G44014579

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
185	EN'URGA TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED	U73100KL2016FTC039913	H24030157
186	ETM CHITTIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2010PTC026424	G43609353
187	ETRANS LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63040KL2013PTC033357	H18413930
188	EULAN IDEAS AND CONCEPTS PRIVATE LIMITED	U74300KL2011PTC028831	G82078320
189	EUTHALIA BUSINESS VENTURES PRIVATE LIMITED	U51900KL2016PTC040189	G59372342
190	EVM HOSPITALITY HOLDINGS PRIVATE LIMITED	U55101KL2011PTC028400	G91814582
191	EXCELSIOR CARS PRIVATE LIMITED	U50400KL2014PTC036100	G61933347
192	EXELOVATE PRIVATE LIMITED	U72900KL2016PTC045878	H07139959
193	EYENEX SAFETY AND SECURITY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC045575	H43328541
194	FABBY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2014PTC037324	G90812223
195	FAMILY SPICES AND CONDIMENTS PRIVATE LIMITED	U15410KL2013PTC034329	G72968043
196	FAREEDA JEWELLERY PRIVATE LIMITED	U51398KL2013PTC034129	G78104700
197	FARMBACT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U01100KL2016PTC045808	H31783889
198	FASHION LADY JEWELS AND GEMS PRIVATE LIMITED	U52393KL2007PTC020519	G49177397
199	FAYA EVENTS AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED (OPC)	U92490KL2015OPC038997	H44240190
200	FIFI PROJECTS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2010PTC026106	G76601715
201	FIN ROBOTICS LABS PRIVATE LIMITED	U72200KL2015PTC039331	H14184683
202	FIN TEX FUSION BODY WRAPS MARKETING PRIVATE LIMITED	U22110KL2007PTC020441	G44390193
203	FINE GOLD MANUFACTURERS CONSORTIUM PRIVATE LIMITED	U36911KL2006PTC020101	G89283840
204	FIRESHELL ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U74200KL2012PTC030935	G87345328
205	FLEETAUTO PRINTING AND PUBLISHING COMPANY PRIVATE LIMITED	U22219KL2009PTC024212	H42929356
206	FLORENCE THE HEALING HANDS PRIVATE LIMITED	U85200KL2018PTC052137	H32793671
207	FLORICH EXPORT & IMPORT PRIVATE LIMITED	U51909KL2015PTC038528	G92084235
208	FORALL LOGISTICS AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U52390KL2015PTC039674	G91974238
209	FORT KITCHENET AND INTERIORS PRIVATE LIMITED	U28111KL2011PTC029747	H00304303
210	FORTEM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED	U67100KL2016PTC047615	H43646439
211	FORYOUMATRIMONY ONLINE SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED	U74999KL2016OPC046277	G80339120
212	FOURMENS FOOTCARE INDIA PRIVATE LIMITED	U52323KL2013PTC033688	G95318176
213	FOZILO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC032146	G45018918
214	FRESH THOUGHTS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900KL2013PTC034763	G89595318
215	FRIENDS KURIES AND TRADES PRIVATE LIMITED	U65992KL1997PTC011583	H43039031
216	FULL HOUSE LABS PRIVATE LIMITED	U72200KL2013PTC034038	G90271602
217	FYNGAR INTERNET PRIVATE LIMITED	U72900KL2017PTC049981	H34204131
218	G S S PROFESSIONAL ACADEMY PVT LTD	U80301KL1993PTC007119	H04643219
219	GAM VISION ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC046226	H20480117
220	GAMXIN BUSINESS NETWORKING SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200KL2014PTC037217	H14177604
221	GBF ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC050076	H21563275
222	GBPO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900KL2006PTC019982	G58184011
223	GDAK TRADES PRIVATE LIMITED	U51909KL2016PTC046488	G81690075
224	GEO EXIM PRIVATE LIMITED	U51909KL2007PTC020247	G80063977
225	GEOMATE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC032091	G91671511
226	GILGAL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200KL2012PTC030658	G45142734

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
227	GLAZE TECH CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	U51432KL2013PTC033553	G85257335
228	GLOBAL CROP CARE PRIVATE LIMITED	U51501KL2012PTC032454	G90323726
229	GLOBAL MEDIA RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED	U80302KL2012PTC032141	G94739901
230	GLOBE PROTECTION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U37200KL2013PTC033162	G70573142
231	GLOBEWELL CONTRACTING PRIVATE LIMITED	U45202KL2014PTC037450	G51304061
232	GLOBINCS FOOD MART PRIVATE LIMITED	U55101KL2016PTC039872	G77417772
233	GLOSSYMOB IT PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC031910	G82036682
234	GNS SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC047497	H00594655
235	GO TALK MOBILES PRIVATE LIMITED	U51395KL2014PTC037443	H44175438
236	GOLDENHILLS SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120KL2008PTC022632	G42649657
237	GRACE STOCK PRIVATE LIMITED	U67120KL2005PTC018711	H40986416
238	GRAPHIX ISLAND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74940KL2012PTC032197	G59184416
239	GREEN INDIA RENEWABLES PRIVATE LIMITED	U51505KL2002PTC015395	H37041753
240	GREENKERALA HOME SHOPPEE AND MARKETING LIMITED	U52100KL2016PLC046743	G81118879
241	GREENTEA SPA RESORTS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U55101KL2008PTC022331	G80262520
242	GROUP10 ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92490KL2013PTC035644	H40853921
243	HADDOSE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24230KL2015PTC038499	G60403102
244	HAMARABAZAAR AGORA PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC048520	H43156702
245	HEADWAY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74910KL2005PTC018252	H43456839
246	HEDMARK INDIA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45400KL2013PTC034210	G92579648
247	HEERA NIDHI LIMITED	U65100KL2017PLC048573	H28887180
248	HERCULES STEEL ROLLERS PRIVATE LIMITED	U27109KL2011PTC029273	G91981993
249	HI LOOK BUILDERS PRIVATE LIMITED	U70102KL2012PTC030419	G82172396
250	HIGH POWER CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL2012PTC030667	G80368707
251	HIGH TECH WASTE MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	U90000KL2013PTC035643	G87060067
252	HIMASAYLAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201KL2003PTC015969	G85949535
253	HINVAC INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900KL2015PTC038555	G80300098
254	HIRA GOLD AND DIAMONDS PRIVATE LIMITED	U52393KL2015PTC038887	H15299746
255	HI-TECK GASKETS PRIVATE LIMITED	U28997KL2012PTC031334	G93650018
256	HOLYGRACE SUPERMARKET PRIVATE LIMITED	U55101KL1998PTC012307	G45693272
257	HOME GREENS AGRI PRIVATE LIMITED	U01100KL2014PTC037170	G73500431
258	HOMELINKERS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U64204KL2012PTC031280	H42285775
259	HOOBLA CYBER TOOLS AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2010PTC025615	H42678219
260	HORIZON MEDICAL CITY PRIVATE LIMITED	U85110KL2015PTC039433	G77343358
261	HRC HEALTH AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED	U85100KL2008PTC022241	G55811830
262	HUEGIN MEDICAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U52609KL2017PTC048265	G89853717
263	HYBRID IMPEX PRIVATE LIMITED	U51900KL2012PTC031283	G42869453
264	IAMT EDUCENTRE PRIVATE LIMITED	U80903KL2014PTC036506	G79159364
265	IBUILDENSER SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900KL2016PTC047188	H40857898
266	ICONIQUE EVENT MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC046687	G60872579
267	IDEAS VOCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U80302KL2012PTC032297	G48714943
268	IECA MEKKAT PRIVATE LIMITED	U74210KL1996PTC010408	G87229829
269	IFARMCLUBS PRIVATE LIMITED	U72900KL2016PTC047428	G92537828



Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
270	IMAGEON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900KL2017PTC050290	H14106843
271	INDEFINITA ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC048440	G92236819
272	INDEPENDENT BROADCASTING PRIVATE LIMITED	U92130KL2011PTC029192	G43086677
273	INDIA BIRD HOLIDAYS PRIVATE LIMITED	U63040KL2013PTC033479	G84279579
274	INDRANEELAM JEWELLERY MART (TIRUR) PRIVATE LIMITED	U36911KL2006PTC019933	G88954888
275	INFAGE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2010PTC025866	G43298884
276	INFOBEADS CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC032493	G94201381
277	INFORMA CYBER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2015PTC037953	G61445334
278	INFOSIGN ECOM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC047513	H32841637
279	INKEL-KINFRA INFRASTRUCTURE PROJECTS LIMITED	U74900KL2010PLC025556	H26667949
280	INMOTEC ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900KL2015PTC039327	H27062181
281	INNOH CURE PRIVATE LIMITED	U85100KL2016PTC040049	H02380863
282	INNU CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201KL1996PTC010765	H06010672
283	INSPRIME ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U40106KL2016PTC046967	H43578376
284	INTEGRARE BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140KL2007PTC021498	G91394338
285	INTELLEXA ACADEMY PRIVATE LIMITED	U80904KL2016PTC047655	G78740198
286	INVIRTUAL NETWORK PRIVATE LIMITED	U72900KL2017PTC051366	H26835140
287	IPSR TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900KL2006PTC019758	G84690536
288	IRISIND INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900KL2017PTC048658	H44283463
289	IWEBTUNE SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC031279	G87926473
290	IWELEEG EDUCOM PRIVATE LIMITED	U80301KL2016PTC040414	H34532150
291	J.R.J. PROJECTS PRIVATE LIMITED	U45500KL2017PTC050579	H32362659
292	JACOB'S CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45201KL2002PTC015228	H27220607
293	JAN FRESH CULTIVATORS AND AGRO PROCESSORS PRIVATE LIMITED	U01120KL2009PTC024691	G44886752
294	JANAKI HOTELS RESORTS & HEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U55101KL2013PTC034542	G93352748
295	JAS FARMS AND ESTATES PVT LTD	U01122KL1987PTC004933	H14819155
296	JAYTEE RUBBER PRIVATE LIMITED	U25199KL1990PTC005853	G40725269
297	JAYVA CAST DOMICILES PRIVATE LIMITED	U26955KL2009PTC024555	H44128213
298	JD CHITS KAZHAKOOTTAM PRIVATE LIMITED	U65992KL2015PTC038912	G81564809
299	JEEVANKIRAN CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL2015PTC038237	G87743803
300	JEFFTEN RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101KL2007PTC021422	G75870196
301	JENUSKAKKARA PROPERTIES & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45309KL2017PTC049691	H33203415
302	JEWEL OF COCHIN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65993KL1996PTC010045	G85414753
303	JEWELCITY JEWELLERS INDIA PRIVATE LIMITED	U36996KL2009PTC024750	G45377538
304	JII ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U40300KL2017PTC047804	H14431639
305	JOGRAND RETAIL PRIVATE LIMITED	U52590KL2015PTC039191	H33049883
306	JOSE' S HOLIDAY AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101KL2008PTC022449	H15644164
307	JOYLUCKK SILK LIMITED	U52321KL2013PLC034902	H17580432
308	JRP INTELLIGENT SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72900KL2016PTC046411	G72619323
309	JSN MANUFACTURING AND TRADING PRIVATE LIMITED	U51100KL2016PTC047560	G93722924
310	JUBILEE LEISURES PRIVATE LIMITED	U55101KL2013PTC033233	G76480383
311	JUMPERS PREMIER LEAGUE PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC046532	H44421113
312	JVSQUARE DEVELOPERS LIMITED	U70101KL2015PLC037851	G80026735
313	JYOTHIRGAMAYA INFOVISION PRIVATE LIMITED	U72200KL2011PTC028828	G44323228

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
314	JYOTHIS PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	U22100KL2014PTC037417	G91754051
315	K C RESORTS AND PROPERTIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U55101KL2008PTC023363	G73013211
316	K- FORCE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140KL2008PTC022120	G90109810
317	K&JW CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140KL2013PTC033810	G44764405
318	K.H.SPICES AND FOODS PRIVATE LIMITED	U15400KL2009PTC023984	G94125937
319	K.K.CUISINES AND BEVERAGES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U15500KL2010PTC027175	G42540872
320	KADALASSERY KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2011PTC029356	G42463562
321	KADAYATTU BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45500KL2016PTC047037	H33761008
322	KAIVALYA CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL2011PTC029642	G83414730
323	KALAVARA CATERERS PRIVATE LIMITED	U55204KL1995PTC009239	G93731420
324	KAMIL EDUCATION AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U80903KL2008PTC023010	G50783315
325	KANJIRAMUKKU BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2008PTC022378	H08299430
326	KANNUR MEDCITY INTERNATIONAL HOSPITAL & RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED	U74999KL2014PTC037371	H03742376
327	KAP INDIA REALTORS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	U70102KL2009PTC025128	G87155156
328	KARAKOMBIL CONSULTANTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED	U74140KL2007PTC020201	G89647374
329	KARALIL SALES (OPC) PRIVATE LIMITED	U51909KL2017OPC049949	H28653608
330	KATTILAPOOVAM VILLAGE BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45202KL2014PTC036824	G81120479
331	KATUNS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U72900KL2002PTC015375	H43002591
332	KEBMER BOILERS PRIVATE LIMITED	U28123KL2013PTC034009	G92946854
333	KENCARE TECH PRIVATE LIMITED	U52100KL2013PTC035123	H29155397
334	KENCEL INFRATECH PRIVATE LIMITED	U72900KL2016PTC040172	H44724771
335	KERALA NUT FOOD COMPANY PRIVATE LIMITED	U15493KL2000PTC013658	G79150439
336	KERALA STATE DETERGENTS AND CHEMICALS LTD	U24243KL1976SGC002816	G87776050
337	KHANNA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101KL2004PTC017228	G79924338
338	KHIBA TRADING PRIVATE LIMITED	U52399KL2015PTC038665	G89848055
339	KILIMAPEPO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45202KL2016PTC046866	H41569286
340	KINDAYS HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101KL2010PTC025862	G82006206
341	KINGSWAY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2011PTC027539	G70107321
342	KIZHAKKE ATTATHU CHITTY PRIVATE LIMITED	U65992KL2005PTC017961	G74702168
343	KNOWLEDGE PROVIDERS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U74140KL2014PTC037676	G75057521
344	KOCHI EXPATRIATES ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U25190KL2013PTC033908	G92636190
345	KOLLAM INSTITUTE OF RESEARCH AND TRAINING PRIVATE LIMITED	U73100KL2010PTC026183	G85361475
346	KOLLAMPARAMPIL AYURVEDIC SEVAS PRIVATE LIMITED	U85191KL2008PTC021834	G88125810
347	KONES BUILDERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	U70101KL2013PTC033733	G94985470
348	KOSAMATTAM HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED	U65922KL2016PTC039943	H42057091
349	KOYENCO HOSPITALITY LIMITED	U65910KL1993PLC006999	G63757918
350	KRAYIKA ECOMMERCE PRIVATE LIMITED	U52399KL2015PTC037859	G96344015

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
351	KRESTON RANGAMANI CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74140KL2011PTC028183	G81773038
352	KRIA-JEWEL CASES AND DISPLAY WARES PRIVATE LIMITED	U74900KL2013PTC034182	G92741818
353	KRINS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2007PTC021376	G45901642
354	KUNNATHUNADU PLASTIC CLUSTER CONSORTIUM PRIVATE LIMITED	U25193KL2013PTC035693	G62052303
355	KURUPPANTHARA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED	U65992KL2014PTC036833	H27131473
356	KVP SHIPPING AGENCIES PRIVATE LIMITED	U63090KL2000PTC013663	G73946642
357	KYPURA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2015PTC038770	G78272234
358	LACCADIVES LAGOONA RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101LD2008PTC019303	G44401834
359	LADDER KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2013PTC035226	G88441324
360	LEADLER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72501KL2018PTC053344	H44185411
361	LE-VALLEE RETREATS PRIVATE LIMITED	U55101KL2015PTC038082	H30291728
362	LEVINGSTON OFFSHORE TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140KL2011PTC029285	G66459520
363	LIATRIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2010PTC027119	G43208966
364	LICHI CHIT FUNDS (VADAKARA) PRIVATE LIMITED	U65990KL2016PTC046135	H04864765
365	LIFERAYS HEALTHCARE INDIA PRIVATE LIMITED	U85100KL2009PTC023888	G87517215
366	LILLIANS MEDICARE PRIVATE LIMITED	U33110KL2011PTC028941	H44215374
367	LIMA PET & POLYMER PRIVATE LIMITED	U25200KL2012PTC030444	G88139563
368	LIMA SALES PRIVATE LIMITED	U51900KL2010PTC027118	G88167101
369	LIMAWHITE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900KL2017PTC048496	H34968222
370	LIVINGWORLD BUILDING STUDIO PRIVATE LIMITED	U45200KL2012PTC031802	G84861707
371	LIVOCARE HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900KL2016PTC046626	G87722138
372	LOGINFOS TECHNO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC049271	H21659024
373	LOSAM TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC030655	H43014836
374	LOTUSGOLD JEWEL EXPORTERS PRIVATE LIMITED	U52393KL2013PTC035185	G87152856
375	LRR SERVICES PRIVATE LIMITED	U80903KL2014PTC036042	G78152634
376	LYSS LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED	U24230KL2012PTC032750	H40984494
377	M J S BUILDING MATERIALS PRIVATE LIMITED	U52341KL2012PTC032736	G92004209
378	M M BUILDING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U45300KL2013PTC034869	G69029825
379	M M I CHIT PRIVATE LIMITED	U65992KL2014PTC036343	H26080846
380	M M SQUARE CLINICS PRIVATE LIMITED	U85110KL2014PTC036568	G69031276
381	M V M FOOD FORMATIONS PRIVATE LIMITED	U15312KL1996PTC010404	G91786111
382	MAANAS PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC031259	G69285195
383	MAGICPLANET EVENTZ PRIVATE LIMITED	U74140KL2014PTC036678	G49846850
384	MAHA GURUDEVA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U52609KL2017PTC049423	G96282256
385	MAJESTIC MARBLE PRODUCTS INDIA LTD	U14101KL1985PLC004229	G68496538
386	MALABAR KITCHEN LIMITED	U28931KL1996PLC010068	G90845157
387	MALABAR MINERALS AND MACHINERIES PRIVATE LIMITED	U74200KL2013PTC035189	G56611924
388	MALAYALAM EDIBLES INDIA LIMITED	U15127KL1999PLC012964	G68546944
389	MALAYALAM SOLVENT EXTRACTIONS LIMITED	U15143KL1994PLC008181	G68546407
390	MALAYIL PLASTIC PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U25200KL2012PTC032479	G75220228
391	MALLELIL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2015PTC039479	G69750461
392	MANIGRAMAM TRADING PRIVATE LIMITED	U51909KL2015PTC038011	G71133599
393	MANSS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U93090KL2016PTC046977	H29250768
394	MARIA PET PRIVATE LIMITED	U25209KL2004PTC017684	H00046755

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
395	MARSHA BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900KL2015PTC037793	G75073403
396	MASS CABLE TELEVISION NETWORK PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC046260	G93479046
397	MATHEW AND MATHEW DAIRIES AND AGROFARMS PRIVATE LIMITED	U01120KL2014PTC036585	H23240443
398	MATHRU JEWELLERS PRIVATE LIMITED	U36911KL2010PTC026802	G47272307
399	MATRIX CYBERTECH PRIVATE LIMITED	U72200KL2014PTC036145	G81641482
400	MATTANCHERRY BOAT YARD PRIVATE LIMITED	U35100KL2013PTC033538	G88553540
401	MATTATHU REALTORS PRIVATE LIMITED	U70100KL2014PTC037569	H43571868
402	MAVELY TRADERS PVT LTD	U51909KL1990PTC005771	G51869287
403	MAYURI KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2011PTC028695	G50872209
404	MECHANICAL EQUIPMENT LEASE AND SUPPLY COMPANY PRIVATE LIMITE	U71200KL2013PTC033775	G81587693
405	MEDICARE HEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC031355	G95030516
406	MEDISURGE BIO HEALTH PRIVATE LIMITED	U52310KL2012PTC032840	G88137872
407	MEDREX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2011PTC029462	G94434768
408	MEDSCAPE INTERNATIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES PRIVATE LIMITED	U85100KL2015PTC038791	G73578973
409	MEGALOGIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL1997PTC011418	G89366793
410	MELINCO BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102KL2010PTC026805	G46633277
411	MENNES RESEARCH AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U72900KL2011PTC029335	G43609734
412	MENON'S BUSINESS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC030217	G76589928
413	MENTAL DA PRIVATE LIMITED	U85300KL2016PTC046823	G87722906
414	MERIYA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED	U01100KL2013PTC033172	H08617284
415	MESAME TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2008PTC022099	G89778773
416	MESSBA HOTELS PRIVATE LIMITED	U55101KL2000PTC013848	G80462401
417	METCART BUILDING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U51909KL2017PTC050852	H41888025
418	METRO 360 SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900KL2016PTC039876	H33497546
419	MIDDLE EAST TRADING PRIVATE LIMITED	U51909KL2002PTC015792	H30243976
420	MIL ENERTECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2015PTC039804	H27129766
421	MILKYAYUR SPA WELLNESS PRIVATE LIMITED	U85100KL2016PTC039988	G94224904
422	MINAR TMT STEELS PRIVATE LIMITED	U28991KL2013PTC033499	H05464607
423	MINDROUTE KNOWLEDGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140KL2011PTC028156	G63284970
424	MINDZFIRE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2011PTC028171	G94859766
425	MIRACLE GREEN HERBAL NUTRIMENTS AND EXPORTERS PRIVATE LIMITE	U24233KL2010PTC026529	G85292787
426	MISTY BLUE HOLIDAYS HOMES PRIVATE LIMITED	U55101KL2012PTC032622	H30480925
427	MIXWELL READY MIX CONCRETE PRIVATE LIMITED	U26940KL2013PTC035733	G96060496
428	MODINIFY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2014PTC036666	G92771625
429	MOONLIGHT CABLE TV NETWORK AND CHANNEL PRIVATE LIMITED	U92130KL2008PTC022759	G85353829
430	MOUNTAIN SPICES LIMITED	U15495KL1996PLC009965	G43852367
431	MSDOTS SOFTWARE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC032973	G69513026
432	MULLACKAL BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2013PTC033546	G93146637
433	MUTHUVARA KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL1998PTC012592	G56396559
434	MVKA TRADE AND EXIM PRIVATE LIMITED	U52100KL2011PTC027382	G94135068

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
435	N P PROPERTIES AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U45200KL2012PTC030840	H18350728
436	NADAVARAMBA RETAIL PRIVATE LIMITED	U52393KL2013PTC034285	G83404863
437	NAGARJUNA VILLAS AND APARTMENTS PRIVATE LIMITED	U70102KL2014PTC036730	G88492012
438	NAMITA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U45200KL2010PTC025452	H00721472
439	NANDAVANAM BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2012PTC032116	G90006396
440	NANJI TOPANBHAI SPICE PRIVATE LIMITED	U15495KL2008PTC023280	G92941509
441	NAPZON IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2014PTC036297	G61951042
442	NASEEMA FRIED CHICKEN TRADERS & DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51909KL2016PTC046994	G82072943
443	NAUTILUS CONSORTIUM PRIVATE LIMITED	U55101KL2013PTC034248	H00022970
444	NAWABI ELECTRONICS AND TELECOM TRADING COMPANY PRIVATE LIMIT	U51395KL2008PTC023410	G45101094
445	NAYANTHARA CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL1997PTC011878	G82249616
446	NEEDS24 ONLINE SUPERMARKET PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC049910	H23029622
447	NEOWA LIGHTING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U52335KL2012PTC032306	G84477751
448	NESSFERT INDIA PRIVATE LIMITED	U72900KL2013PTC035752	G81263972
449	NETOGETHER INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72200KL2011PTC027499	G88082987
450	NETTADYIL CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	U45201KL1995PTC009116	H11149325
451	NEU TOWN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200KL2013PTC034849	H27731165
452	NEW HOPE PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70101KL1996PTC010189	G74486564
453	NEW INDIAN VOYAGES PRIVATE LIMITED	U63040KL2004PTC016840	G45461886
454	NIBAAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2015PTC038782	G78634920
455	NICE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U80301KL2010PTC026251	G46662011
456	NINE IDIOT IT WORLD PRIVATE LIMITED	U72900KL2013PTC033246	G78550985
457	NIRAKUDAM CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL2010PTC025804	G93484038
458	NITFAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U29299KL2012PTC031824	H00168880
459	NITOR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2010PTC026671	H04831954
460	NRCA ROOFING INDIA PRIVATE LIMITED	U74900KL2012FTC031973	G87239398
461	NRI HOME DESK PRIVATE LIMITED	U74999KL2006PTC019259	G70955141
462	NULLTON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900KL2017PTC047896	H41534546
463	OASISNUTRA MANUFACTURING PRIVATE LIMITED	U15400KL2013PTC033191	G92022961
464	O'BRIEN ASSOCIATES EDUCATIONAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74995KL2013PTC033322	G89025803
465	OLEXOR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC031097	G43722016
466	OLIVE INSTITUTIONS PRIVATE LIMITED	U80301KL2005PTC018782	G47228705
467	ONAPARAKKEL AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U01100KL2016PTC046662	G90102641
468	ORCHID COMMUNICATION THRISSUR PRIVATE LIMITED	U92132KL2009PTC025234	G92398411
469	ORIN TRADING AND IMPEX PRIVATE LIMITED	U51399KL1999PTC012984	G84050046
470	ORLANDO BIO TECH PRIVATE LIMITED	U24120KL2009PTC024778	G43850353
471	OUROWN SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120KL2012PTC031196	G90033010
472	OURRA ELECTRICALS PRIVATE LIMITED	U51505KL2013PTC035476	G81038432
473	PACHI AUTO COMPONENTS PRIVATE LIMITED	U29199KL2009PTC023687	G44575488
474	PADDINGTON ACADEMY PRIVATE LIMITED	U80904KL2015PTC039208	G87898896
475	PALA INFOSERVE PRIVATE LIMITED	U72200KL1998PTC012502	G93637023
476	PALAKKA EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51900KL2015PTC039529	G88118930

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
477	PALAMALAI STEELS PRIVATE LIMITED	U27104KL1995PTC009317	G72050826
478	PALLIVAYAL STEELS PRIVATE LIMITED	U27109KL2013PTC034415	G94649670
479	PANIKKETTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2013PTC033109	G80109929
480	PANTHALODIL TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U52311KL2013PTC035107	G52745908
481	PAPOOSS HERBAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED (OPC)	U24247KL2015OPC038751	H30442065
482	PARASURAM ENGINEERING KANNUR PRIVATE LIMITED	U74999KL2006PTC019395	G85064178
483	PARAYATH BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2008PTC023226	G86841327
484	PARKSON TEA PRODUCE COMPANY PRIVATE LIMITED	U15491KL2003PTC016174	G90099896
485	PART CYLINDERS PRIVATE LIMITED	U28121KL2012PTC030949	G84911668
486	PASSWORD MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC030440	G91858761
487	PATHIPARAMBAN SHOPPING MALLS PRIVATE LIMITED	U45300KL2015PTC038591	H16272254
488	PEAFOWL TRADES AND EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51909KL2008PTC022498	H29678067
489	PEE CEE TRADERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51393KL2008PTC023191	G59734202
490	PEEVEES PETROLEUM PRODUCTS LIMITED	U23201KL1994PLC007828	G76095751
491	PEGASUS E-PUBLISHING SERVICES PRIVATE LIMITED	U72400KL2012PTC032455	G92956093
492	PEPNEER PACKAGE PRIVATE LIMITED	U15541KL2013PTC033921	G60580172
493	PEPTUNE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92190KL2014PTC037510	G75649160
494	PERAVOOR CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL2012PTC031662	G94030772
495	PERITIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2014PTC037603	G78707106
496	PERUMA KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2010PTC025931	H21061742
497	PERUMALIL FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED	U70100KL2013PTC033146	G86795424
498	PERUMMAL ALLOYS PRIVATE LIMITED	U27106KL1995PTC009318	G72051543
499	PGQUEST ONLINE.COM PRIVATE LIMITED	U80902KL2011PTC030024	H20505525
500	PINSOM TRADERS PRIVATE LIMITED	U51432KL2013PTC033896	G92380914
501	PIQUE IT SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900KL2017PTC050643	G78881257
502	PLANET HOMES AND VILLAS PRIVATE LIMITED	U45201KL2006PTC019811	G88766241
503	PLANET WARRIORS PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC047253	H33588807
504	PLANT WOOD INTERIORS PRIVATE LIMITED	U36101KL2000PTC014093	H31992043
505	POABS ENVIRO TECH PRIVATE LIMITED	U24123KL1999PTC013375	G58979790
506	POLLUTECH ENVIROSYSTEMS PRIVATE LIMITED	U29200KL2013PTC034892	G60888526
507	POOLVO I.T. SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2013PTC033048	G73543118
508	POWERLINK SERVICES PRIVATE LIMITED	U51395KL2002PTC015644	H08199564
509	PRAVASI KERALA TOURISM ENTERPRISES LIMITED	U63040KL2001PLC014888	H32677973
510	PRAVASI ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED	U01404KL2015PTC039271	G76896422
511	PRESTO FREIGHT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U63010KL2012PTC031312	G95390274
512	PRIME ESCAPADES PRIVATE LIMITED	U55101KL2012PTC032152	H29680212
513	PRITHVI FLATS AND APARTMENTS PRIVATE LIMITED	U45200KL2013PTC034880	G92407840
514	PROPERTY PARK REAL ESTATE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70100KL2013PTC035360	H20469466
515	PROXIMA KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2008PTC023582	G56973654
516	PRUDENT AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	U01100KL2010PTC026186	G85362622
517	PULIYANNUR KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2010PTC026710	H19837376
518	PURE TONE SPECIALIST PRIVATE LIMITED	U52310KL2014PTC037677	H16985483
519	PURINDIA VENTURES PRIVATE LIMITED	U51909KL2014PTC036423	G93943066
520	PURNAROGYA HOLISTIC HEALTHCARE AND RESEARCH PRIVATE LIMITED	U24232KL2015PTC039050	G76889617
521	PUTHOOR GRANITES PRIVATE LIMITED	U14102KL2011PTC029124	G61979472

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
522	Q CLASS FURNITURE PRIVATE LIMITED	U36100KL2013PTC034520	G92896331
523	QTOUCH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2010PTC025829	G52508900
524	QUANTINIUM ALGOLYTICS PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC032532	G78804556
525	QUESH ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED	U51909KL2012PTC031178	G87142501
526	QUINNS OFF SHORE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140KL2011PTC028004	H06982953
527	R SQUARE DIGITAL SURVEYORS PRIVATE LIMITED	U74999KL2011PTC029994	H43913987
528	RAHMAH BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2009PTC024417	G93947703
529	RAJAB LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63090KL2011PTC029076	G43595115
530	RAJADHANI HOTELS AND TOURIST ENTERPRISES PVT LTD	U55101KL1982PTC003655	G76159722
531	RAM THRIMAN CREATIVE VISUALS AND STUDIOS PRIVATE LIMITED	U92190KL2010PTC026192	G80927932
532	RAMACHANDRAN AND COMPANY PRIVATE LIMITED	U67120KL1992PTC006488	G92856293
533	RAVISON'S CONSULTANCY AND INFOSERVICES PRIVATE LIMITED	U74140KL2010PTC026080	G62028485
534	REALTIME SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE PRIVATE LIMITED	U80300KL2010PTC025697	G81085060
535	REDINVENT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2011PTC028423	G93418945
536	REDSTAR FC THRISSUR PRIVATE LIMITED	U92490KL2016PTC045933	G94566197
537	REGEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U40106KL2013PTC034634	G82810987
538	RELIABLE ENGINEERS AND DESIGNERS INDIA PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC032780	G92039817
539	RELIANT NIDHI LIMITED	U65920KL2016PLC040110	H42299156
540	RENILS GLOBAL IMPEX PRIVATE LIMITED	U51221KL2016PTC040306	G81661985
541	REVDI CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900KL2015PTC038076	G83948554
542	RICHINDIA CHITS PRIVATE LIMITED	U65999KL2016PTC045844	H29938487
543	RIDEES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U72200KL2016PTC047418	G55341580
544	RIPPLES ASSOCIATES INDIA PRIVATE LIMITED	U52393KL2014PTC036405	G84584994
545	ROCKINGS GRANITES PRIVATE LIMITED	U14102KL2014PTC036156	G79951273
546	ROCKLAND CRUSHERS PRIVATE LIMITED	U14290KL2013PTC034946	G73813859
547	ROSARA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U92132KL2008PTC021931	G43477702
548	ROYAL FIVE TRANS & LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63090KL2013PTC033041	H19884188
549	ROYAL STAR HUMAN RESOURCE AND TRAVEL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74910KL2010PTC027281	H43278332
550	RSJB POWER SERVICES PRIVATE LIMITED	U74200KL2010PTC025421	H18496687
551	RSN&JJ PROJECTS AND INITIATIVES PRIVATE LIMITED	U55101KL2012PTC032380	G79434940
552	RUBICON STRATEGIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140KL2013PTC033487	G68452259
553	RUBIRULES SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2009PTC024979	G43016252
554	RUBY MATRIMONY PRIVATE LIMITED	U72400KL2012PTC032063	H08624082
555	RUNAWAY DRONE PICTURES PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC046591	G90152455
556	S & S REHABILITATION PRIVATE LIMITED	U33110KL2013PTC034965	G91916015
557	S R E R E ROLLERS PRIVATE LIMITED	U27105KL1995PTC009320	G72052525
558	S S G SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120KL1995PTC009473	H14605877
559	SADGAMAYA KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2013PTC033196	H05806831
560	SAHIYA TRADING CO PVT LTD	U51501KL1984PTC003886	G77598076
561	SAMSUDHI KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2009PTC025195	G74786906
562	SANATHANA KURIES AND LOANS PRIVATE LIMITED	U65992KL1997PTC011621	H11260817

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
563	SANCTUM TECHNO MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140KL2000PTC013796	H23500705
564	SANDALIA SHOES PRIVATE LIMITED	U19200KL2013PTC033173	G84921832
565	SANDIJU PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45201KL2008PTC023183	G51707131
566	SANJOSE SECURITIES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120KL2010PTC027307	G70659636
567	SAPS ENVIRONMENT PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U52100KL2012PTC031523	H41426255
568	SARASTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2014PTC037453	H21862487
569	SARAYS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2008PTC022580	G62888672
570	SATALANE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2011PTC029865	G44971067
571	SATBHAVANA PRINTING AND PUBLISHING COMPANY PRIVATE LIMITED	U22219KL2010PTC026264	G45891553
572	SATLINE MANPOWER CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74910KL2010PTC026546	G48043541
573	SAUDI SAHRDAYA PRAVASI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102KL2012PTC031125	H42647099
574	SCIENCEFLORA PUBLISHERS PRIVATE LIMITED	U22100KL2015PTC039132	H21622337
575	SCIEN TECH PHARMA AND HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U33110KL2009PTC023885	H42953166
576	SCREENERY MEDIA PRIVATE LIMITED	U74300KL2008PTC022194	H15116668
577	SCUBA TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2010PTC026562	G43362797
578	SEMANTICS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2000PTC013996	H25884164
579	SF MOTORS PRIVATE LIMITED	U50100KL2014PTC036319	G85284131
580	SHABAFZHA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U45309KL2018PTC052732	H14240550
581	SHAMEEL KATTUMUNDA ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC047032	H43972520
582	SHUZI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900KL2016PTC046854	G72849078
583	SICO TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51900KL2014PTC036437	H01761931
584	SIE MANTRA BUSINESS & DEVELOPMENTS (I) PRIVATE LIMITED	U45202KL2013PTC035748	G71007439
585	SIEMECS CONSULTING AND CONTRACTING PRIVATE LIMITED	U74900KL2015PTC038258	H14033633
586	SILVER FOAM PVT LTD	U25199KL1986PTC004609	H44339166
587	SIMONS ACCOUNTING AND TAX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC032790	G80459282
588	SINGNOR SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900KL2003PTC016733	G93670313
589	SIXERONE REALTORS PRIVATE LIMITED	U45201KL2005PTC018956	H34809699
590	SIXSIGMA ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999KL2013PTC034319	H34920801
591	SKY HARVEST IMPORT & EXPORT PRIVATE LIMITED	U74900KL2013PTC033420	G90627597
592	SKYROSS HABITATS PRIVATE LIMITED	U45200KL2010PTC027017	G43344332
593	SLING SHOT CONSTRUCTIONS AND TRADING PRIVATE LIMITED	U51909KL2014PTC036052	H28031854
594	SMARTECH REALTORS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70101KL2008PTC022150	H16324519
595	SMARTWAYS B2B CONNECT PRIVATE LIMITED	U74995KL2012PTC032621	G94689338
596	SNOW WHITE HOMECARE PRIVATE LIMITED	U74930KL2008PTC021765	G85655504
597	SOFTHUES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC032139	H12361952
598	SOMAFINE NIDHI LIMITED	U65999KL2017PLC049728	H28828721
599	SOUND MASTER ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U32300KL2015PTC038693	G83321919
600	SPAAR INFOTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72200KL2011PTC029594	G83361386
601	SPACIOUS MEDIA PRIVATE LIMITED	U74140KL2013PTC033989	G95954160
602	SPECTRUM NURSES RECRUITMENT SERVICES PRIVATE	U74910KL2008PTC022940	G78043262



Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
	LIMITED		
603	SPEEDTRUX TRANSIST AND TRADE PRIVATE LIMITED	U63090KL2010PTC025275	G62822689
604	SPINE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	U74140KL2011PTC029903	G82573429
605	SPOT ENERGY INTEGRATIONS PRIVATE LIMITED	U31200KL2015PTC038077	G89956619
606	SQUARE FOOT HOUSING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U45200KL2012PTC031087	G45606936
607	ST PETERS KURIES AND LOANS PVT LTD	U65992KL1993PTC007541	G43395045
608	STAMPTEK METALS PRIVATE LIMITED	U28110KL2012PTC031955	G88136825
609	STAMPTEK PART CENTRE FABRICATION PRIVATE LIMITED	U28990KL2012PTC031996	G88137310
610	STAR DALE CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL2015PTC039520	G90657826
611	STRATEGIC NIRVANA INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72200KL2015PTC038435	G49802622
612	SUJANMA HATCHERIES PVT LTD	U05005KL1983PTC003664	G69696599
613	SUKRUTAM INFRASTRUCTURE DEVELOPER LIMITED	U70200KL2017PLC049488	G92479377
614	SUNBEAM IMPEX VENTURES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51900KL2011PTC027358	G46124442
615	SUNROYAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2010PTC027203	G45792538
616	SWARAJ MARKETING & COMMUNICATION CONSULTANCY(INDIA) PRIVATE	U74140KL2014PTC036236	G86928512
617	SWISSGER EXPORTS PVT LTD	U51909KL1994PTC008394	H30527618
618	SYMPHONY INSTITUTE OF ACCOUNTS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U80903KL2011PTC027910	G41841008
619	TAEC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC030326	G89404917
620	TALKSHOP STRATEGIC CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U73100KL2008PTC022666	G45587276
621	TANKFULL ADS PRIVATE LIMITED	U74300KL2015PTC038798	G83641837
622	TARON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900KL2016PTC046986	G62232129
623	TEAMLEAD INVESTMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140KL2007PTC020378	G64380686
624	TECH TAMERS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED (OPC)	U72300KL2016OPC040280	G64163744
625	TECHGO INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2014PTC036808	G58148347
626	TECHMATE PROJECTS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102KL2008PTC022149	H17355306
627	TECHREY COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U72900KL2014PTC037669	G72928625
628	TEKAURA LIGHTING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U52335KL2015PTC039314	H42895888
629	TELCON MANUFACTURING AND TRADING INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U27100KL2012PTC032640	G72380256
630	TELYADS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2015PTC037842	H39726369
631	TEMC TRINE ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U72900KL2017PTC049206	H43597418
632	TEMCO ELECTRICAL & ELECTRONIC DEVICES PRIVATE LIMITED	U31909KL2008PTC022882	H31956253
633	TEXPLOXE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC050672	H30671952
634	TFS MARKETING AND FINANCIAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U67190KL2006PTC020114	G45103975
635	THARA SEA GUESTHOUSE PRIVATE LIMITED	U55103KL2013PTC034364	G61278891
636	THAZHVARAM FARMS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	U70100KL2010PTC027276	G88334750
637	THE OVERSEAS BREWERIES PRIVATE LIMITED	U15532KL1998PTC012693	G92346188
638	THE PAPPINISSERI SAW MILLS PVT LTD	U02002KL1956PTC001720	G75876706
639	THENUR HOUSING PRIVATE LIMITED	U45200KL2018PTC053096	H43807775
640	THENUR LIVING PRIVATE LIMITED	U45309KL2018PTC053228	H43888049
641	THENUR RESIDENCES PRIVATE LIMITED	U45309KL2018PTC053093	H43887868

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
642	THENUR VENTURES PRIVATE LIMITED	U45303KL2018PTC053089	H43888288
643	THINGALSREE CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999KL2015PTC037879	G73989378
644	THREE SEAS MEDICAL AND SURGICAL PRIVATE LIMITED	U85110KL2014PTC037002	H39837281
645	THRIPRAYAR DATA COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U64200KL2016PTC040126	G92407196
646	THRISSUR GRAMINA SUPER MARKET LIMITED	U52330KL2010PLC025490	G48949135
647	THUSHARA ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED	U52100KL2012PTC031364	G73787541
648	TIBER GAS & POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED	U11100KL2015PTC039450	H31322340
649	TITA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45200KL2012PTC031164	G52897709
650	TORR ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	U51395KL1985PTC004310	H30128383
651	TOTQM CERTIFICATIONS PRIVATE LIMITED	U74990KL2013PTC035747	H27264811
652	TOWNKART ONLINE PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC048550	H43013531
653	TRAKOL CARBON PRIVATE LIMITED	U31900KL2017PTC047969	H29346764
654	TRANCHE RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED	U74140KL2011PTC028122	G95402053
655	TRANSCEND BUILDERS PRIVATE LIMITED	U70102KL2011PTC028878	G52192804
656	TRANSCRIB MED PRIVATE LIMITED	U74999KL2004PTC017130	G77713527
657	TRANSEMUZ TRADING PRIVATE LIMITED	U60300KL2017PTC050760	H43588532
658	TRANSTORM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC049867	H42390211
659	TRIMED (INDIA) MARKETING PRIVATE LIMITED	U51397KL2005PTC018841	H17129255
660	TRINUM SOFTWARE PRIVATE LIMITED	U72200KL2015PTC038310	G59631838
661	TRIOS BLOCK RUBBERS PRIVATE LIMITED	U25191KL2002PTC015594	G89251151
662	TRISTAR LOGISTICS AND SHIPPING PRIVATE LIMITED	U63090KL2004PTC017159	G86111713
663	TRITVAM NIDHI LIMITED	U65999KL2017PLC048614	G93439917
664	TRIUNE ORGANIC CHICKEN PRIVATE LIMITED	U01222KL2011PTC028501	G86555570
665	TRIVANDRUM RUBBER WORKS LTD	U25191KL1963SGC002034	G42265413
666	TRUECOAT WONDER COLOURS TRADES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U51100KL2013PTC033757	G81513186
667	TURTLE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U67120KL2011PTC028099	G44085397
668	TUZLIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2015PTC037904	G46609376
669	U S EDUCATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U80903KL2012PTC031180	G91591461
670	UBIKA MARKETING PRIVATE LIMITED	U52100KL2012PTC030838	G59286658
671	ULOOF AUTO LUBRICANTS TRADERS PRIVATE LIMITED	U74999KL2015PTC037932	G69036549
672	UNI B INTEGRATED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900KL2015PTC037927	H25485970
673	UNICUS SPICES & NATURAL EXTRACTS PRIVATE LIMITED	U15400KL2015PTC038157	G57157000
674	UNITE ORGANIC VALLEY PRODUCTS AND TRAVEL SERVICES PRIVATE LIMITED	U63090KL2015PTC038342	G70477054
675	UNITY PACKERS PRIVATE LIMITED	U74950KL1999PTC012958	G74589904
676	UNITY XPERT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC032909	H33231747
677	UPSKILL ARTECH EDU PRIVATE LIMITED	U80904KL2015PTC038116	G79578944
678	UR BEST AUTOMATION AND SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74920KL2009PTC024731	G74455411
679	USHAS FIRE TECH PRIVATE LIMITED	U75230KL2012PTC032381	G91757013
680	V C H INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	U45203KL2011PTC028762	G85261188
681	V STEP POLYMERS PRIVATE LIMITED	U25190KL2013PTC035486	H20914677
682	V V I P JEWELS & GEMS EXPORTS PRIVATE LIMITED	U52393KL2013PTC033325	G94068988
683	VA Wafa GARMENTS PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC046232	G60379856

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
684	VAASYS SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC049137	H04652715
685	VAIKOM KURIES PVT LTD	U65992KL1990PTC005647	G72646680
686	VAKAYAR CHITTY FUND PRIVATE LIMITED	U65992KL2013PTC035446	G92978394
687	VALENTINO SANITARIES PRIVATE LIMITED	U51909KL2011PTC028272	G90268798
688	VALLUVANAD AGRO PRIVATE LIMITED	U01403KL2015PTC038783	G93402949
689	VALLUVANAD FOODS LIMITED	U15499KL2003PLC015874	H20533717
690	VALUE 2 RISK MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140KL2013PTC035260	G80141815
691	VANRUB PRIVATE LIMITED	U24131KL1996PTC010192	G43521947
692	VARMALA PROPERTIES & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200KL2016PTC040053	G83533703
693	VELI SWIMMING ACADEMY PRIVATE LIMITED	U74900KL2013PTC034441	G74010299
694	VELIYIL RESORTS AND HOTELS PRIVATE LIMITED	U55101KL2011PTC028200	G43635259
695	VELLAPALLY BROTHERS CONSTRUCTIONS PVT LTD	U45201KL1973PTC002502	G41163544
696	VENGILASSERY KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2009PTC024816	G77046076
697	VENICEMART ECOMMERCE SERVICES AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMIT	U52100KL2012PTC032198	G46771093
698	VENZAI EXIM AND TRADERS PRIVATE LIMITED	U51900KL2010PTC026388	G44218733
699	VETTATH KURIES PRIVATE LIMITED	U65992KL2007PTC020623	G68889427
700	VIGMO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2013PTC034805	G69920858
701	VIGNESWARA FIBERS PRIVATE LIMITED	U51396KL2012PTC030881	G43422682
702	VINETINE HEALTHCARE (OPC) PRIVATE LIMITED	U51909KL2017OPC048959	G78204898
703	VIRGIN CHITS PRIVATE LIMITED	U65992KL2010PTC026248	G45787462
704	VISHAL XPERIA HOLIDAYS PRIVATE LIMITED	U63040KL2011PTC029700	G89142764
705	VISTARBAZAR HINDUSTAN PRIVATE LIMITED	U51909KL2015PTC039214	H19020270
706	VOID SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2015PTC038985	G81642282
707	VSDLABS PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC046015	H21609946
708	VYDOORIAM FASHION JEWELLERS (CHEMMAD) PRIVATE LIMITED	U36911KL2006PTC020119	G88955372
709	VZM MARKETING PRIVATE LIMITED	U74900KL2011PTC028118	G48010094
710	WALT MAC APPAREL PRIVATE LIMITED	U52322KL2011PTC028757	G86467859
711	WAUM TEAM PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC031485	G72196389
712	WAYANAD PAPPY'S AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U51220KL2015PTC037916	G55850333
713	WE-5 EVENTS PRIVATE LIMITED	U92490KL2012PTC030695	H11861457
714	WEBHABET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900KL2015PTC039353	H04196390
715	WEBTURE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72200KL2011PTC029997	G76404425
716	WECARE LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U63010KL2010PTC026061	G43956036
717	WECO FOODS ( INDIA) PRIVATE LIMITED	U15540KL2013PTC034386	H01729144
718	WELDOT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U65910KL1996PTC009870	G71072342
719	WERINNOV CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200KL2013PTC033337	G71352728
720	WERLIO ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U74210KL2016PTC039829	G70084421
721	WESTBOURNE EXPORTS PRIVATE LIMITED	U51909KL2012PTC031627	H41703315
722	WESTERN GHATS NATURAL EXTRACTS PRIVATE LIMITED	U15400KL2013PTC033983	G95401717
723	WI3 IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900KL2015PTC038030	G83261651
724	WIFA ORGANICS INDIA PRIVATE LIMITED	U51909KL2015PTC039236	G90337270
725	WINGMAN CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC048503	G57238230
726	WINTRUST BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE	U45201KL2008PTC021745	H34078899

Sl. No.	Company Name	CIN	SRN
	LIMITED		
727	WINZEL HOTELS AND HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED	U55101KL2009PTC024901	G43776152
728	WIREFRAME SOFT (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72200KL2013PTC035005	G88847439
729	WISDOMPLUS ACADEMIC MANAGEMENT AND TRAINING PRIVATE LIMITED	U80301KL2010PTC026981	G89837637
730	WISEMEN BOOKS PUBLISHERS PRIVATE LIMITED	U22122KL2003PTC016070	G92901974
731	WMH PREVENTIVE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U85100KL2010PTC026267	G92740901
732	WOODWORTH FURNITURE PRIVATE LIMITED	U36101KL2005PTC018686	H29913993
733	WORTHACT ENTERPRISE PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC048896	H32643827
734	WYNAD FLAVOURS INDIA LIMITED	U01120KL2013PLC035245	H17421876
735	XYNOME BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900KL2014PTC036476	G91203992
736	YAKS TELECOM PRIVATE LIMITED	U64201KL2008PTC022178	G88420823
737	YALEMMA PETRO PRIVATE LIMITED	U51102KL2014PTC036345	G88432869
738	YESMAR GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999KL2016PTC047310	G72931454
739	YORK ELEVATORS PRIVATE LIMITED	U29150KL2012PTC031839	G72314727
740	YOUKO POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED	U40102KL2015PTC038840	H43316249
741	YOURS GLOBAL GOLD ARCADE PRIVATE LIMITED	U36911KL2012PTC032706	G86958436
742	YULA SOFT PRIVATE LIMITED	U72200KL2013PTC035789	G75303594
743	ZAFIN INFRA PRIVATE LIMITED	U45200KL2016PTC045929	G69955318
744	ZAYTUN MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC032727	H20590659
745	ZENGENIUS INNOVEST PRIVATE LIMITED	U74140KL2012PTC032744	G57018707
746	ZEPHYR TUTORIALS PRIVATE LIMITED	U80903KL2013PTC033669	G94848637
747	ZINETA INDIA PRIVATE LIMITED	U74999KL2017PTC050639	G94929650
748	ZLATAN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U52590KL2016PTC046763	G86422292
749	ZOLBREEZE TECHNOLOGIES & RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200KL2012PTC032340	G52719358

Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above mentioned companies under Section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application(s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company (ies) have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off its/their names from the register of companies.

(2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies

(3) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

G. C. YADAV  
Registrar of Companies  
Kerala